



भारत का राजपत्र The Gazette of India

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2907]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 27, 2013/पौष 6, 1935

No. 2907]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 27, 2013/PAUSA 6, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3826(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “लेपरा सोसायटी, प्लॉट नं० 17, पोस्ट बॉक्स नं० 1518, कृष्णापुरी कॉलोनी, वेस्ट मारडपल्ली, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश” की “i) बोलांगीर कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना ii) जूनागढ़ कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना iii) कोरालेप परियोजना : कुष्ठरोग से पीड़ित व्यक्तियों की गौण चिकित्सा हेतु रेफरल सिस्टम का सुदृढीकरण iv) लसीका फाइलेरिया परियोजना v) लेपरा महानदी नेत्र अस्पताल vi) तकनीकी संसाधन यूनिट तथा रेफरल सिस्टम सुदृढीकरण परियोजना vii) अदिलाबाद ग्रामीण एवं जनजातीय स्वास्थ्य परियोजना viii) चेतुता परियोजना ix) मेन्ज़ इंटरवेंशन परियोजना x) मोबाइल स्वैच्छिक परामर्श तथा परीक्षण केन्द्र परियोजना xi) उम्मीद परियोजना xii) वर्कप्लेस इंटरवेंशन परियोजना xiii) कृष्णा समुदाय स्वास्थ्य इंटरवेंशन परियोजना xiv) श्रेयासु परियोजना तथा xv) तकनीकी संसाधन युनिट-एमपी” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 15.41 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 9 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “लेपरा सोसायटी, प्लाट नं० 17, पोस्ट बॉक्स नं० 1518, कृष्णापुरी कॉलोनी, वेस्ट मारडपल्ली, सिकंदराबाद, आंध्र प्रदेश” की “i) बोलांगीर कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना ii) जूनागढ़ कुष्ठरोग उन्मूलन परियोजना iii) कोरालेप परियोजना : कुष्ठरोग से पीड़ित व्यक्तियों की गौण चिकित्सा हेतु रेफरल सिस्टम का सुदृढीकरण iv) लसीका फाइलेरिया परियोजना v) लेपरा महानदी नेत्र अस्पताल vi) तकनीकी संसाधन यूनिट तथा रेफरल सिस्टम सुदृढीकरण परियोजना vii) अदिलाबाद ग्रामीण एवं जनजातीय स्वास्थ्य परियोजना viii) चैयुता परियोजना ix) मेन्ज़ इंटरवेंशन परियोजना x) मोबाइल स्वैच्छिक परामर्श तथा परीक्षण केन्द्र परियोजना xi) उम्मीद परियोजना xii) वर्कप्लेस इंटरवेंशन परियोजना xiii) कृष्णा समुदाय स्वास्थ्य इंटरवेंशन परियोजना xiv) श्रेयासु परियोजना तथा xv) तकनीकी संसाधन यूनिट-एमपी” की परियोजना अथवा स्कीम को 15.41 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 75/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3826(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021(E) dated 23.12.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9 “i) Bolangir Leprosy Eradication Project, ii) Junagarh Leprosy Eradication Project, iii)Koralep Project: strengthening referral system for secondary care of persons affected by leprosy, iv)Lymphatic filariasis project, v) LEPRO Mahanadi eye hospital, vi) Technical resource unit and strengthening referral system project, vii) Adilabad rural and tribal health project, viii) Cheyutha project, ix)Mens intervention project, x)Mobile voluntary counselling and testing centre project, xi)Umeed project, xii)Workplace intervention project, xiii)Krishna community health intervention project, xiv)Sreyassu project and xv)Technical resources unit-MP.” by “Lepra Society, Plot No.17, Post Box No.1518, Krishnapuri Colony, West Marredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh”, as an eligible project at the estimated cost of Rs.15.41 crore for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “i) Bolangir Leprosy Eradication Project, ii) Junagarh Leprosy Eradication Project, iii)Koralep Project:strengthening referral system for secondary care of persons affected by leprosy, iv)Lymphatic filariasis project, v) LEPRO Mahanadi eye hospital, vi) Technical resource unit and strengthening referral system project, vii) Adilabad rural and tribal health project, viii) Cheyutha project, ix)Mens intervention project, x)Mobile voluntary counseling and testing centre project, xi)Umeed project, xii)Workplace intervention project, xiii)Krishna community health intervention project, xiv)Sreyassu project and xv)Technical resources unit-MP.” which is being carried out by “Lepra Society, Plot No.17, Post Box No.1518, Krishnapuri Colony, West Marredpally, Secunderabad, Andhra Pradesh”, without any change in the approved

cost of Rs.15.41 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15 & 2015-16.

[No. 75 /2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3827(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसएबल्ड, 11, विला सुच्चिता, प्रथम क्रॉस, 17वाँ ए मेन, जे.पी. नगर, सैकेंड फेस, बंगलौर – 560078, कर्नाटक की “विद्या प्रसाद” – बंगलौर जिले की झुग्गी बस्तियों व ग्रामीण इलाकों में सरकारी सहायता प्राप्त 150 विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन प्रदान करने की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 7 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1149 (अ) के द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे और तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए - (क) एतद्वारा “ समर्थनम ट्रस्ट फॉर द डिसएबल्ड, 11, विला सुच्चिता, प्रथम क्रॉस, 17वाँ ए मेन, जे.पी. नगर, सैकेंड फेस, बंगलौर – 560078 कर्नाटक” द्वारा चलाई जा रही “ विद्या प्रसाद” – बंगलौर जिले के झुग्गी बस्तियों व ग्रामीण इलाकों में सरकारी सहायता प्राप्त 150 विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन प्रदान करने की परियोजना अथवा स्कीम को 21.86 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 76/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3827(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.466(E) dated the 29th March, 2007, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, “Vidya Prasad” – A project for providing mid day meal for 150 government aided schools in the slums and rural areas of Bangalore district” by Samarthanam Trust for the Disabled, 11, Villa Suchita, 1st Cross, 17th A Main, J.P.Nagar , 2nd Phase, Bangalore –560078, Karnataka, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-2008; which was further extended vide notification number S.O. 1149(E) dated 17th May, 2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project "Vidya Prasad" - A project for providing mid day meal for 150 government aided schools in the slums and rural areas of Bangalore district, which is being carried out by "Samarthanam Trust for the Disabled, 11, Villa Suchita, 1st Cross, 17th A Main, J.P.Nagar, 2nd Phase, Bangalore -560078, Karnataka", without any change in the approved cost of Rs. Rs. 21.86 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 76 /2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3828(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 28.09.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2349 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "गुजरात बाल विकास मंडल, ए.टी. एंड पीओ मोरा, तालुक मोर्वा हाडा, पंचमहल 389001, गुजरात" की "जनजातीय विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सहायता, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विद्यालय और तकनीकी शिक्षा केन्द्र की आवर्ती लागत और 25 लाख रुपये की कार्पस निधि" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए 25 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 2.72 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 9 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा "गुजरात बाल विकास मंडल, ए.टी. एंड पीओ मोरा, तालुक मोर्वा हाडा, पंचमहल 38900, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही "जनजातीय विद्यार्थियों हेतु शैक्षिक सहायता, जनजातीय विद्यार्थियों के लिए विद्यालय और तकनीकी शिक्षा केन्द्र आवर्ती लागत और 25 लाख रुपये की कार्पस निधि" की परियोजना अथवा स्कीम को 25 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 2.72 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि, अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 77/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3828(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2349(E) dated 28.09.2010 issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9 "Educational Aid for Tribal

students, recurring cost of school and technical educational centre for the tribal students and for a corpus fund of Rs. 25 lacs” by “Gujarat Bal Vikas Mandal, At & PO Mora, Taluka Morva Hada, Panchmahal 389001, Gujarat.”, as an eligible project at the estimated cost of Rs. 2.72 crore including a corpus fund of Rs. 25 lakh for a period of three years ending with financial year 2012-13;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond 3 years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Educational Aid for Tribal students, recurring cost of school and technical educational centre for the tribal students and for a corpus fund of Rs. 25 lacs” which is being carried out by “Gujarat Bal Vikas Mandal, At & PO Mora, Taluka Morva Hada, Panchmahal - 389001, Gujarat.”, without any change in the approved cost of Rs. 2.72 crore including a corpus fund of Rs. 25 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15 & 2015-16.

[No. 77 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3829(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.08.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1860 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट, 8, जॉली भवन नं. 1, 10, न्यू मैरीन लाइन, मुम्बई-400020, महाराष्ट्र” की “ए केयरिंग हैंड” परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-2012 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 15.34 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 14 पर विनिर्दिष्ट किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने और अनुमानित लागत में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए - (क) एतद्वारा “नवजीवन चैरिटेबल ट्रस्ट, 8, जॉली भवन नं. 1, 10, न्यू मैरीन लाइन, मुम्बई - 400020, महाराष्ट्र” द्वारा चलाई जा रही “ए केयरिंग हैंड” परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 11.08.2011 की उक्त अधिसूचना सं0 का0आ0 1860 (अ) में आगे निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 14 के कालम (4), जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में “15.34 करोड़ रुपये” अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर “24.49 करोड़ रुपये” अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 78/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3829(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 1860 (E) dated 11.08.2011, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 14 “A Caring Hand ” by “Navjeevan Charitable Trust, 8, Jolly Bhavan No. 1, 10, New Marine Line, Mumbai -400020, Maharashtra”, as an eligible project or scheme at the estimated cost of Rs.15.34 crore, for a period of three years beginning with financial year 2011-12.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the estimated cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project for “A Caring Hand” which is being carried out by “Navjeevan Charitable Trust, 8, Jolly Bhavan No. 1, 10, New Marine Line, Mumbai -400020, Maharashtra” as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

(b) further amends the said notification number S.O. 1860 (E) dated 11.08.2011, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 14, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs. 15.34 crore”, the letters, figures and words “Rs.24.49 crore” shall be substituted.

[No. 78 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3830(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17.11.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2907 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “संजीवनी स्वास्थ्य एवं राहत समिति, मार्फत डॉ० पंकज आर. शाह, हरि ओम फ्लेट्स, चंद्रनगर के समीप, नारायणनगर रोड, पालदी, अहमदाबाद – 383007, गुजरात” के “संजीवनी ग्रामीण आरोग्य केन्द्र” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-2012 को समाप्त होने वाले वर्ष तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1066 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के समाप्त होने तक आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि परियोजना लागत का 1.83 करोड़ रुपये से बढ़ कर 4.28 करोड़ रुपये होने ही संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत परियोजना लागत को 1.83 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 4.28 करोड़ करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा दिनांक 14.05.2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1066 (अ) के साथ पठित दिनांक 17.11.2009 की उक्त अधिसूचना सं० का०आ० 2907 (अ०) में आगे निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 3 के कालम (4), जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में “1.83 करोड़ रुपये” अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर “4.28 करोड़ रुपये” अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 79/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3830(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No. 2907 (E) dated 17.11.2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, “Sanjivani Gramin Arogya Kendras” by “Sanjivani Health and Relief Committee, C/o Dr. Pankaj R. Shah, Hari Om Flats, Nr. Chandranagar, Narayannagar Road, Paldi, Ahmedabad 383007 - Gujarat”, as an eligible project or scheme for a period of three years for a period of three financial years ending with financial year 2011-12; which was further extended vide notification number S.O.1066 (E) dated 14.05.2012 ending with financial year 2014-15.

And whereas the project cost is likely to enhance from Rs.1.83 crore to Rs.4.28 crore;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the project cost from Rs.1.83 crore to Rs.4.28 crore;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby amends the said notification number S.O. No. 2907 (E) dated 17.11.2009 read with Notification number S.O. 1066 (E) dated 14.05.2012, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number (3), in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and word “Rs.1.83 crore”, the letters, figures and word “Rs.4.28 crore” shall be substituted.

[No. 79/2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3831(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 06.10.2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 2545 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “प्रयास सामाज कल्याण सोसायटी, डी.सी. मॉडल सीनियर सेकंडरी स्कूल, सेक्टर-09, फरीदाबाद-121006” की “झुग्गियों में रहने वाले लड़कों, लड़कियों और महिलाओं के समेकित विकास, बहुआयामी प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण और विकास” की परियोजना को 3.11 करोड़

रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2009-2010 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 2 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1378 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के पांच वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और अनुमानित लागत में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “प्रयास सामाजिक कल्याण सोसायटी, डी.सी. मॉडल सीनियर सेकंडरी स्कूल, सेक्टर 9, फरीदाबाद 121006” द्वारा चलाई जा रही “झुगियों में रहने वाले लड़कों, लड़कियों और महिलाओं के समेकित विकास, बहुआयामी प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण और विकास” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वित्तीय वर्षों की अवधि, अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं० का०आ० 1378 (अ) के साथ पठित दिनांक 06.10.2009 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 2545 (अ) में आगे निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामतः:-

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 2 के कालम (4), जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में “3.11 करोड़ रुपये” अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर “7.77 करोड़ रुपये” अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 80/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3831(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2545(E) dated 6.10.2009, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 2, “Integrated Development of boys, girls and women from slum dwellers Construction and Development of a multifaceted training centre” by “Prayas Social Welfare Society, D.C. Model Sr. Sec. School, Sector – 09, Faridabad 121006”, as an eligible project or scheme at the estimated cost of Rs. 3.11 crore, for a period of two years beginning with financial year 2009-10; which was further extended vide notification S.O. No. 1378(E) dated 14.06.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the estimated cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

a) hereby notifies the scheme or project "Integrated Development of boys, girls and women from slum dwellers Construction and Development of a multifaceted training centre", which is being carried out by Prayas Social Welfare Society, D.C. Model Sr. Sec. School, Sector -09, Faridabad 121006, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year the financial year 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

b) further amends the said notification number S.O. 2545(E) dated 6.10.2009 read with notification number S.O. No. 1378(E) dated 14.06.2011, to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.3.11 crore", the letters, figures and words "Rs.7.77 crore" shall be substituted.

[No. 80/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3832(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "वीरायतन, ए टी एंड पोस्ट वीरायतन, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार-803 116" की "विशेष रूप से महिलाओं और 12 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए "वीरायतन स्वास्थ्य केन्द्र" नामक एक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं रख-रखाव" की परियोजना को 404.81 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2010-2011 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 30 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए - (क) एतद्वारा "वीरायतन, ए टी एंड पोस्ट वीरायतन, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार-803 116" द्वारा चलाई जा रही "विशेष रूप से महिलाओं और 12 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिए "वीरायतन स्वास्थ्य केन्द्र" नामक एक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण एवं रख-रखाव" की परियोजना अथवा स्कीम को 404.81 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से अगले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 81/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3832(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No.3021(E) dated 23.12.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial

number 30, "Construction and maintenance of a Health Centre specially for women and children below 12 years of age named "Veerayatan Health Centre" by "Veerayatan, At & Post Veerayatan, Rajgir, District Nalanda, Bihar - 803 116", at the estimated cost of Rs.404.81 lakh, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project "Construction and maintenance of a Health Centre specially for women and children below 12 years of age named "Veerayatan Health Centre", which is being carried out by "Veerayatan, At & Post Veerayatan, Rajgir, District Nalanda, Bihar - 803 116", without any change in the approved cost of Rs. 404.81 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 81 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3833(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 614 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने "वल्लूवर गुरुकुलम, 220, जीएसटी रोड, तामबरम वेस्ट, चेन्नई-600045" की "कला भवनम" परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-2011 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 2.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 16 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए - (क) एतद्वारा "वल्लूवर गुरुकुलम, 220, जीएसटी रोड, तामबरम वेस्ट, चेन्नई-600045" द्वारा चलाई जा रही "कला भवनम" परियोजना अथवा स्कीम को 2.38 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से अगले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 82/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3833(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.614(E) dated 18.03.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16,

“Kala Bhavanam” by “Valluvar Gurukulam, 220, GST Road, Tambaram West, Chennai-600045”, at the estimated cost of Rs. 2.38 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Kala Bhavanam”, which is being carried out by “Valluvar Gurukulam, 220, G S T Road, Tambaram West, Chennai-600045”, without any change in the approved cost of Rs. 2.38 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 82 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3834(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 614 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “सेवा सदन नेत्र अस्पताल ट्रस्ट, सिविल अस्पताल के पीछे, संत हिरदाराम नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462030” की “निःशुल्क नेत्र शिविर तथा यूरोलोजी शिविर” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-2011 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 5.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 6 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए – (क) एतद्वारा “सेवा सदन नेत्र अस्पताल ट्रस्ट, सिविल अस्पताल के पीछे, संत हिरदाराम नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश - 462030” द्वारा चलाई जा रही “निःशुल्क नेत्र शिविर तथा यूरोलोजी शिविर” की परियोजना अथवा स्कीम को 5.69 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से अगले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 83/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3834(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.614(E) dated 18.03.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, “Free eye camps and Urology camps” by “Sewa Sadan Eye Hospital Trust, Behind Civil Hospital, Sant Hirdaram Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462030”, at the estimated cost of Rs. 5.69 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Free eye camps and Urology camps”, which is being carried out by “Sewa Sadan Eye Hospital Trust, Behind Civil Hospital, Sant Hirdaram Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462030”, without any change in the approved cost of Rs. 5.69 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 83 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3835(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 05.07.2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 998 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने “पैरागॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, 1-11/12, पैरागॉन कान्डोमीनियम, पंडुरंग बुधकर मार्ग, वॉर्ली, मुम्बई – 400013” की झुग्गी बस्ती में रहने वालों और कारखानों के कामगारों के बच्चों के लिए “मुक्तांगन” बालवाड़ी और स्कूल की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2006-2007 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 7 अधिसूचित किया था और जिसे आगे दिनांक 17.06.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1471(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से अगले तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था, जिसे आगे दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1397(अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के आठ वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने और अनुमानित लागत में वृद्धि करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “पैरागॉन चैरिटेबल ट्रस्ट, 1-11/12, पैरागॉन कान्डोमीनियम, पंडुरंग बुधकर मार्ग, वॉर्ली, मुम्बई – 400013” द्वारा चलाई जा रही झुग्गी बस्ती में रहने वालों और कारखानों के कामगारों के बच्चों के लिए “मुक्तांगन” बालवाड़ी और स्कूल की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से अगले तीन वर्षों की अवधि

अर्थात् 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 05.07.2006 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 998 (अ)में आगे निम्नलिखित प्रभाव हेतु संशोधन करती है, नामत :-

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं0 7 के कालम (4), जोकि धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य लागत की अधिकतम राशि से संबंधित है, में “आवर्ती खर्च के लिए 37.80 लाख रुपये और 4.55 करोड़ रुपये की एक कार्पस निधि” अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों के स्थान पर “आवर्ती खर्च के लिए 100 लाख रुपये और 4.55 करोड़ रुपये की एक कार्पस निधि” अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 84/2013/ फा.सं. वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3835(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.998(E) dated the 5.07. 2006, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7, “ “Muktangan” Balwadi and school project for children of slum dwellers and factory workers” by Paragon Charitable Trust, I-11/12, Paragon Condominium, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400013, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with assessment year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O.1471(E) dated 17th June, 2008 for a further period of three years beginning with the financial year 2008-09; which was further extended vide notification number S.O. 1397(E) dated 14.06.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eight years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the estimated cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

a) hereby notifies the scheme or project “ “Muktangan” Balwadi and school project for children of slum dwellers and factory workers” being carried out by Paragon Charitable Trust, I-11/12, Paragon Condominium, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400013, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2014-15, i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

(b) further amends the said notification number S.O. 998(E) dated the 5.07.2006, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 7, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.37.80 lakhs for recurring expenses and a corpus fund of Rs.4.55 crore.”, the letters, figures and words “Rs.100 lakh for recurring expenses and a corpus fund of Rs. 4.55 crore” shall be substituted.

[No. 84/2013/F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COMPT)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3836(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 27 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 915 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने सेठ वाडीलाल साराभाई जनरल अस्पताल और सेठ चिन्नई मेटरनिटी अस्पताल, एल्लिस ब्रिज, अहमदाबाद-6 की “अहमदाबाद, गुजरात में स्थित अस्पताल के लिए अतिरिक्त भवन का निर्माण/वर्तमान भवन का नवीनीकरण तथा उपस्करों की खरीद” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 8 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 05 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1012 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-2007 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 03 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2388 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के दस वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “सेठ वाडीलाल साराभाई जनरल अस्पताल और सेठ चिन्नई मेटरनिटी अस्पताल, एल्लिस ब्रिज, अहमदाबाद – 6” द्वारा चलाई जा रही “अहमदाबाद, गुजरात में स्थित अस्पताल में अतिरिक्त भवन का निर्माण/वर्तमान भवन का नवीनीकरण तथा उपस्करों की खरीद” की परियोजना अथवा स्कीम को 1635.45 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से अगले तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में इस निदेश के साथ अधिसूचित करती है कि चूँकि वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 पहले ही समाप्त हो गये हैं, वित्तीय वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के अंतर्गत कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा ।

[सं. 85/2013/ फा.सं. वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3836(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.915(E) dated the 27th August, 2002, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, “Construction of additional building/renovation of existing building and purchase of equipments for the Hospital at Ahmedabad, Gujarat” by Sheth Vadilal Sarabhai General Hospital and Sheth Chinai Maternity Hospital, Ellis Bridge, Ahmedabad-6, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O. 1012(E) dated the 5th July, 2006 for a period of two years beginning with financial year 2006-2007; which was further extended vide notification number S.O. 2388(E) dated 03.10.2008 for a period of three years ending with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond ten years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-Section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Construction of additional building/renovation of existing building and purchase of equipments for the Hospital at Ahmedabad, Gujarat" being carried out by Sheth Vadilal Sarabhai General Hospital and Sheth Chinai Maternity Hospital, Ellis Bridge, Ahmedabad-6, without any change in the approved cost of Rs.1635.45 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2011-12 i.e., 2011-12, 2012-13 and 2013-14, with the direction that as the financial years 2011-12 & 2012-13 have already lapsed, no certificate under section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial years 2011-12 & 2012-13.

[No. 85 /2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM.)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3837(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "प्रज्ञा चैतन्य फाउंडेशन ट्रस्ट, डी-847, 48/11, श्री फल अपार्टमेंट्स, शहीद अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर-302017" द्वारा चलाए जा रहे "ग्रामीण युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम" को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 5.89 करोड़ ₹0 की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 29 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) "प्रज्ञा चैतन्य फाउंडेशन ट्रस्ट, डी-847, 48/11, श्री फल अपार्टमेंट्स, शहीद अमित भारद्वाज मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर-302017 चलाई जा रही "ग्रामीण युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम प्रशिक्षण" की परियोजना अथवा स्कीम को 5.89 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 86/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3837(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021(E) dated 23.12.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 29 “Rural Youth Empowerment Program” by “Pragya Chaitanya Foundation Trust, D-847, 48/11, Shri Phal Apartments, Shaeed Amit Bharadwaj Marg, Malviya Nagar, Jaipur 302017.”, at the estimated cost of Rs. 5.89 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Rural Youth Empowerment Program”, which is being carried out by “Pragya Chaitanya Foundation Trust, D-847, 48/11, Shri Phal Apartments, Shaeed Amit Bharadwaj Marg, Malviya Nagar, Jaipur-302017”, without any change in the approved cost of Rs. 5.89 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 86 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM.)]
R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3838(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 28 सितम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2349 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “खीमचंद लक्ष्मीचंद मूक व बधिर स्कूल ट्रस्ट, 51, विद्यानगर, भावनगर-364002, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “वर्तमान क्रियाकलापों के विस्तार अर्थात् बधिर छात्रों के लिए कक्षाओं का विस्तार करने” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 337 लाख रु. की कॉर्पस निधि सहित 540 लाख रु0 की लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) “खीमचंद लक्ष्मीचंद मूक व बधिर स्कूल ट्रस्ट, 51, विद्यानगर, भावनगर-364002, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “वर्तमान क्रियाकलापों के विस्तार अर्थात् बधिर छात्रों के लिए कक्षाओं का विस्तार करने” की परियोजना अथवा स्कीम को 337 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 540 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना

वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 87/2013/ फा.सं. वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3838(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2349 (E) dated 28.09.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, “For Extension & support of present activities i.e., to extend the classes for deaf students” by “Khimchand Laxmichand Deaf & Dumb School Trust, 51, Vidyanagar, Bhavnagar-364002, Gujarat”, at the estimated cost of Rs. 540 lakh including a corpus fund of Rs. 337 lakh, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “For Extension & support of present activities i.e., to extend the classes for deaf students”, which is being carried out by “Khimchand Laxmichand Deaf & Dumb School Trust, 51, Vidyanagar, Bhavnagar -364002, Gujarat”, without any change in the approved cost of Rs.540 lakh including a corpus fund of Rs.337 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 87/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3839(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “एम्पैथी फाउंडेशन, 405, कुशल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपर्स स्टॉप के ऊपर, जी.एम. रोड, चेम्बूर (पश्चिम), मुंबई-400089” द्वारा चलाई जा रही “स्कूल परियोजना (जिला परिषद/म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनजीओ और ग्राम पंचायत के स्कूल का नवीनीकरण, निर्माण, बड़ी मरम्मतें” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 7.60 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 26 पर अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए -(क) “एम्पैथी

फाउंडेशन, 405, क्रुशल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, शॉपर्स स्टॉप के ऊपर, जी.एम. रोड, चेम्बूर (पश्चिम), मुंबई-400089" द्वारा चलाई जा रही "स्कूल परियोजना (जिला परिषद/म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एनजीओ और ग्राम पंचायत के स्कूल का नवीनीकरण, निर्माण, बड़ी मरम्मतें" की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 12 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1649 (अ) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामत :-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 26 के सामने सारणी में "7.60 करोड़ रुपये" संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर "18.42 करोड़ रुपये" संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 88/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3839(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O. 1649 (E) dated 12.07.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 26 "School Project (renovation, construction, major repairs of Zila Parishad/Municipal Corporation, NGO's and Gram Panchayat's school)" by "Empathy Foundation, 405, Krushal Commercial Complex, above Shopper's Stop, G.M Road, Chembur (West), Mumbai 400089", as an eligible project or scheme at the estimated cost of Rs.7.60 crore, for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the estimated cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

(a) hereby notifies the scheme or project for "School Project (renovation, construction, major repairs of Zila Parishad/Municipal Corporation, NGO's and Gram Panchayat's school)" which is being carried out by "Empathy Foundation, 405, Krushal Commercial Complex, above Shopper's Stop, G.M Road, Chembur (West), Mumbai 400089" as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

(b) further amends the said notification number S.O. 1649 (E) dated 12.07.2010, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 26, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.7.60 crore", the letters, figures and words "Rs.18.42 crore" shall be substituted.

[No. 88 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3840(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 469 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “महावीर हार्ट रिसर्च फाउंडेशन, अवंती अपार्टमेंट्स, गांधी मार्केट के पीछे, सिओन (पूर्व), मुंबई-400020” द्वारा “(क) डिटेक्शन, प्रीवेन्शन रिसर्च और एजुकेशन, (ख) दिल के मरीजों का डायग्नोसिस, इलाज और ऑपरेशन; (ग) अतिथि गृह का अनुरक्षण” संबंधी परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-98 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 8 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 18 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-01 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 13 जून, 2003 की अधिसूचना सं. का.आ. 686 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 152 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 231 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे बाद में दिनांक 14 मई, 2012 की अधिसूचना सं. का.आ. 1076 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “महावीर हार्ट रिसर्च फाउंडेशन, अवंती अपार्टमेंट्स, गांधी मार्केट के पीछे, सिओन (पूर्व), मुंबई-400020” द्वारा चलाई जा रही ““(क) डिटेक्शन, प्रीवेन्शन रिसर्च और एजुकेशन, (ख) दिल के मरीजों का डायग्नोसिस, इलाज और ऑपरेशन; (ग) अतिथि गृह का अनुरक्षण” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 व 2016 -17 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 2 जुलाई, 1996 की अधिसूचना सं. का.आ. 469 (अ) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामत :-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 8 के सामने सारणी में “315.85 लाख रुपये” संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “442.19 लाख रुपये” संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 89/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3840(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.469(E) dated the 2nd July, 1996, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, “(a) Detection, Prevention Research and Education; (b) Diagnosis, curing and operation to Heart patients; (c) Maintaining of Atithi Griha” by Mahavir Heart Research Foundation, Avanti Apartments, Behind Gandhi Market, Sion(East), Mumbai-400020, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998, which was extended further vide notification number S.O.18(E) dated the 4th January, 2000 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O.686(E) dated the 13th June, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O.152(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006 and which was extended further vide notification number S.O. 231(E) dated 21st January, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2008-09; which was extended further vide notification number 1076(E) dated 14.05.2012 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas, the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And whereas, the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the estimated cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

a) hereby notifies the scheme or project “(a) Detection, Prevention Research and Education; (b) Diagnosis, curing and operation to Heart patients; (c) Maintaining of Atithi Griha” being carried out by Mahavir Heart Research Foundation, Avanti Apartments, Behind Gandhi Market, Sion(East), Mumbai-400020, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17

b) further amends the said notification number S.O.469(E) dated the 2nd July, 1996, to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 8, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.315.85 lakh”, the letters, figures and words “Rs.442.19 lakh” shall be substituted.

[No. 89 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3841(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (i) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 366 (अ.) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “कनोरिया सेवा केंद्र, 307, अभिजीत नेताजी मार्ग, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “गांधीनगर, गुजरात में कनोरिया अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के विस्तार-भवन का निर्माण, इसके लिए उपस्करों/उपकरणों, मोबाइल वैन की खरीद तथा इसकी साज-सज्जा और संचालन” संबंधी परियोजना को निर्धारण वर्ष 2000-01 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 10 सितंबर, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 981 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद

में दिनांक 4 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 506 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 244 (अ0) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 27 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 862 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि दिनांक 22 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 639 (अ.) द्वारा परियोजना लागत को 161.81 लाख रु. से बढ़ाकर 381 लाख रु. कर दिया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “कनोरिया सेवा केंद्र, 307, अभिजीत नेताजी मार्ग, एलिसब्रिज, अहमदाबाद, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “गांधीनगर, गुजरात में कनोरिया अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के विस्तार-भवन का निर्माण, इसके लिए उपस्करों/उपकरणों, मोबाइल वैन की खरीद तथा इसकी साज-सज्जा और संचालन” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 व 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 639 (अ) के साथ पठित दिनांक 10 अप्रैल, 2000 की अधिसूचना सं. का.आ. 366 (अ.) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 3 के सामने सारणी में “381 लाख रुपये” संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “723 लाख रुपये” संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 90/2013/ फा.सं. वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3841(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.366(E) dated the 10th April, 2000, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, “Construction of extension building, purchase of equipments/instruments, mobile van, furnishing and running of Kanoria Hospital and Research Centre at Gandhi Nagar, Gujarat” by Kanoria Seva Kendra, 307, Abhijeet Netaji Marg, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O.981(E) dated the 10th September, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O.506(E) dated the 4th April, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006; which was further extended vide notification number S.O.244(E) dated the 21st January, 2009 for a period of three years beginning with financial year 2008-09; and which was further extended vide S.O. No. 862 (E) dated 27.04.2011 for three years ending with financial year 2013-14.

And whereas by notification number S.O 639(E) dated 22.3.2010, the project cost was enhanced from Rs.161.81 lakh to Rs. 381 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the estimated cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

a) hereby notifies the scheme or project “Construction of extension building, purchase of equipments/instruments, mobile van, furnishing and running of Kanoria Hospital and Research Centre at Gandhi Nagar, Gujarat” being carried out by “Kanoria Seva Kendra, 307, Abhijeet Netaji Marg, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujarat” for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

b) further amends the said notification number S.O. 366(E) dated the 10th April, 2000 read with notification number S.O. 639(E) dated 22.3.2010 to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 3, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.381 lakh”, the letters, figures and words “Rs.723 lakh” shall be substituted.

[No. 90/2013/F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM.)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3842(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “नेत्र चिकित्सा ट्रस्ट, राधिका सामान्य अस्पताल, चितल रोड, अमरेली, गुजरात” द्वारा “मेडिकल कैम्प संचालित करने और एक करोड़ रु. की कॉर्पस निधि के लिए नर्सिंग कोर्स हेतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए ट्रस्ट अस्पताल के आवर्ती खर्चों” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक करोड़ रु. की कॉर्पस निधि सहित 9.02 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) “नेत्र चिकित्सा ट्रस्ट, राधिका सामान्य अस्पताल, चितल रोड, अमरेली, गुजरात” द्वारा “मेडिकल कैम्प संचालित करने और एक करोड़ रु. की कॉर्पस निधि के लिए नर्सिंग कोर्स हेतु प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए ट्रस्ट अस्पताल के आवर्ती

खर्चों की परियोजना अथवा स्कीम को एक करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 9.02 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 91/2013/ फा.सं. वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3842(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021 (E) dated 23.12.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, “Recurring expenses for trust hospital, for setting up a training centre for nursing course, for conducting medical camps and for a corpus fund of Rs. one crore” by “Netra Chikitsa Trust, Radhika General Hospital Chital Road, Amreli, Gujarat”, at the estimated cost Rs.9.02 crore including corpus fund of Rs.1 crore., as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Recurring expenses for trust hospital, for setting up a training centre for nursing course, for conducting medical camps and for a corpus fund of Rs. one crore.”, which is being carried out by “Netra Chikitsa Trust, Radhika General Hospital Chital road, Amreli, Gujarat”, without any change in the approved cost Rs.9.02 crore including corpus fund of Rs.1 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 91 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3843(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2835 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “तारा संस्थान, 236ए, सेक्टर-6 हिरण मागरी, उदयपुर-313002, राजस्थान” द्वारा चलाए जा रहे “नेत्र अस्पताल, अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र के विस्तार” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 3.85 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “तारा संस्थान, 236ए, सेक्टर-6 हिरण मागरी, उदयपुर-313002, राजस्थान” द्वारा चलाई जा रही “नेत्र अस्पताल, अनुसंधान और पुनर्वास केंद्र के विस्तार” की परियोजना अथवा स्कीम को 3.85 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 व 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 92/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3843(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2835 (E) dated 19.12.2011, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, “Extension of Eye Hospital, Research and Rehabilitation Centre” by “Tara Sansthan, 236 A, Sector-6 Hiran Magri, Udaipur -313002, Rajasthan.”, at the estimated cost of Rs.3.85 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2011-12.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Extension of Eye Hospital, Research and Rehabilitation Centre”, which is being carried out by “Tara Sansthan, 236 A, Sector-6 Hiran Magri, Udaipur -313002, Rajasthan.”, without any change in the approved cost of Rs.3.85 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 92 /2013/F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3844(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “डैवलपमेंट इनिशिएटिव फोर सेल्फ-हेल्प एंड एवेकनिंग (दिशा) मार्फत समाज सेवा केंद्र, क्र. सं. 4272, अकुर्दी डाकघर के पीछे, अकुर्दी, पुणे-411035 द्वारा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्षमता निर्माण, मार्केट सपोर्ट और माइक्रो-क्रेडिट कार्यक्रम के माध्यम से निर्धनता कम करने संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 18 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 11.10.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 2523 (अ.) द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) "डैवलपमेंट इनिशिएटिव फोर सेल्फ-हेल्प एंड एवेकनिंग (दिशा) मार्फत समाज सेवा केंद्र, क्र. सं. 4272, अकुर्दी डाकघर के पीछे, अकुर्दी, पुणे-411035 द्वारा समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए क्षमता निर्माण, मार्केट सपोर्ट और माइक्रो-क्रेडिट कार्यक्रम के माध्यम से निर्धनता कम करने की परियोजना अथवा स्कीम को 163.06 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 93/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3844(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 466(E) dated 29th March, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 18, Poverty alleviation through capacity building, market support and micro-credit programme for economically weaker section of the society by Development Initiative for Self-Help and Awakening (DISHA).C/o. Samaj Seva Kendra, Sr. No. 4272, Behind Akurdi Post Office, Akurdi, Pune-411035, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; and which was further extended vide notification S.O. No.2523(E) dated 11.10.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three year;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project "Poverty alleviation through capacity building, market support and micro-credit programme for economically weaker section of the society", is being carried out by Development Initiative for Self-Help and Awakening (DISHA).C/o. Samaj Seva Kendra, Sr. No. 4272, Behind Akurdi Post Office, Akurdi, Pune-411035, without any change in the approved cost of Rs. 163.06 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 & 2015-16.

[No. 93/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3845(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (i) अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "ग्राम निर्माण केलावाणी मंडल, गांव व डाकघर थावा, तालुका वालिया, जिला-भरूच-393135, गुजरात" द्वारा चलाई जा रही

“स्कूल और छात्रावास भवन के पुनर्निर्माण और विकास” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 1.83 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 22 पर अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए –(क) “ग्राम निर्माण केलावाणी मंडल, गांव व डाकघर थावा, तालुका वालिया, जिला-भरुच-393135, गुजरात” द्वारा चलाई जा रही “स्कूल और छात्रावास भवन के पुनर्निर्माण और विकास” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2012-13, 2013-14 व 2014 -15 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में इस निदेश के साथ अधिसूचित करती है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 पहले ही समाप्त हो गया है अतः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(ख) दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2370 (अ) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 22 के सामने सारणी में “1.83 करोड़ रुपये” संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “5.72 करोड़ रुपये” संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 94/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3845(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2370 (E) dated 03.10.2008, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 22, “Reconstruction and Development of School & Hostel Building” by “Gram Nirman Kelavani Mandal, At & PO Thava, Taluka Valia, District Bharuch-393135 Gujarat”, at the estimated cost of Rs.1.83 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years ending with financial year 2011-12.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the estimated cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

a) hereby notifies the scheme or project "Reconstruction and Development of School & Hostel Building", which is being carried out by "Gram Nirman Kelavani Mandal, At & PO Thava, Taluka Valia, District Bharuch-393135 Gujarat", as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2012-13 i.e. 2012-13, 2013-14 and 2014-15, with the direction that as the financial year 2012-13 has already lapsed, no certificate under section 35AC of the Income Tax Act, 1961 would be issued for the financial year 2012-13;

(b) further amends the said notification number S.O. 2370 (E) dated 03.10.2008 to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 22, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs.1.83 crore", the letters, figures and words "Rs.5.72 crore" shall be substituted.

[No. 94 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3846(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 जुलाई, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 998 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "वीरायतन जखानिया, भुज-मांडवी रोड, डाकघर तलवाना, तालुका मांडवी-कच्छ (गुजरात) 370460" द्वारा जखानिया प्राथमिक विद्यालय (अंग्रेजी व गुजराती माध्यम) का संचालन, रूद्रानी प्राथमिक विद्यालय का संचालन, जखानिया गांव में आवासीय सुविधा के साथ स्कूल परिसर की स्थापना, जखानिया गांव में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन, जखानिया गांव में अस्पताल और चिकित्सीय सुविधाओं का संचालन और ग्रामीण क्षेत्र में निराश्रित महिलाओं/विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रावास का निर्माण" संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 17 पर अधिसूचित किया था; और जिसे दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 641 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) "वीरायतन जखानिया, भुज-मांडवी रोड, डाकघर तलवाना, तालुका मांडवी-कच्छ (गुजरात) 370460 द्वारा जखानिया प्राथमिक विद्यालय (अंग्रेजी व गुजराती माध्यम) का संचालन, रूद्रानी प्राथमिक विद्यालय का संचालन, जखानिया गांव में आवासीय सुविधा के साथ स्कूल परिसर की स्थापना, जखानिया गांव में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन, जखानिया गांव में अस्पताल और चिकित्सीय सुविधाओं का संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में निराश्रित महिलाओं/विकलांग व्यक्तियों के लिए छात्रावास का निर्माण संबंधी परियोजना अथवा स्कीम को 5.95 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2012-13, 2013-14 व 2014 -15 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है और इस निदेश के साथ कि वित्तीय वर्ष 2012-13 पहले ही समाप्त हो चुका है अतः

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

[सं. 95/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3846(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 998(E) dated the 5th July, 2006, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 17, “Running of Jakhania Primary school (English & Gujarati medium), Running of Rudrani Primary School, Establishment of school premises at Jakhania village with residential facility, Running of vocational training programme at Jakhania village, Running of hospital and medical facilities at Jakhania village and in rural area, Construction of hostel accommodation for destitute women/handicapped individuals” by Veerayatan Jakhania, Bhuj – Mandvi Road, At Post Talwana, Taluka Mandvi-Kutch (Gujarat) 370460, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2006-07; and which was further extended vide notification number S.O. 641 (E) dated 22.03.2010 for a period of three years ending with financial year 2011-12.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Running of Jakhania Primary school (English & Gujarati medium), Running of Rudrani Primary School, Establishment of school premises at Jakhania village with residential facility, Running of vocational training programme at Jakhania village, Running of hospital and medical facilities at Jakhania village and in rural area, Construction of hostel accommodation for destitute women/handicapped individuals by Veerayatan, Jakhania, Bhuj – Mandvi Road, At Post Talwana, Taluka Mandvi-Kutch (Gujarat) 370460, without any change in the approved cost of Rs. 5.95 crores, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2012-13 i.e. 2012-13, 2013-14 and 2014-15, with the direction that as the financial year 2012-13 has already lapsed, no certificate under section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial year 2012-13.

[No. 95/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3847(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1145 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सेवालय, कासुवा गांव, डाकघर पक्कम थिरुनिरावुर के समीप, 602024, तमिलनाडू” द्वारा चलाई जा रही “स्कूल के खर्चों को पूरा करने और कॉर्पस निधि बनाने के लिए सेवालय स्कूल व्यय परियोजना” को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 3 पर अधिसूचित किया था; और जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 638 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) "सेवालय, कासुवा गांव, डाकघर पक्कम थिरुनिरावुर के समीप, 602024, तमिलनाडू द्वारा स्कूल के खर्चों को पूरा करने और कॉर्पस निधि बनाने के लिए सेवालय स्कूल व्यय परियोजना" की परियोजना अथवा स्कीम को 3.00 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 4.00 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 96/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3847(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1145(E) dated the 16th July, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 3, "Sevalaya School expenses project to meet the running expenses of the school and to build corpus fund" by Sevalaya, Kasuva Village, Pakkam PO near Thiruninravur, 602024, Tamil Nadu, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; and which was further extended vide notification S.O. No.638(E) dated 22.03.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Sevalaya School expenses project to meet the running expenses of the school and to build corpus fund" by Sevalaya, Kasuva Village, Pakkam PO near Thiruninravur, 602024, Tamil Nadu, without any change in the approved cost of Rs.4.00 crore including a corpus fund of Rs.3.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with the financial year 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 96 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 2013

का.आ. 3848(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 14 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1370 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "स्वामी विवेकानन्द एजुकेशन ट्रस्ट, ग्राम नानी कड़ी टा, कड़ी, जिला मेहसाना, गुजरात 382715", द्वारा "एडवांसमेंट ऑफ रनिंग एंड सपोर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स", की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की

अवधि के लिए 4.89 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 16 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,- (क) “स्वामी विवेकानन्द एजुकेशन ट्रस्ट, ग्राम नानी कड़ी टा, कड़ी, जिला मेहसाना, गुजरात 382715”, द्वारा चलायी जा रही “एडवांसमेंट ऑफ रनिंग एंड सपोर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स”, की परियोजना अथवा स्कीम को 4.89 करोड़ रुपएकी अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 97/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3848(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1370(E) dated 14.06.2011, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 16, “Advancement of Running and Support Education Institutions” by “Swami Vivekanand Education Trust, At: Nani Kadi Ta, Kadi, District Mehsana, Gujarat 382715”, at the estimated cost of Rs. 4.89 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2011-12.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of Rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), — hereby notifies the scheme or project “Advancement of Running and Support Education Institutions”, which is being carried out by “Swami Vivekanand Education Trust, At: Nani Kadi Ta, Kadi, District Mehsana, Gujarat 382715”, without any change in the approved cost of Rs. 4.89 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2014-15 i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 97 /2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3849(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की

दिनांक 23.12.2013 की अधिसूचना सं. का.आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “बन्नारी रूरल फाउंडेशन, बन्नारी अम्मान सुगरस काम्पलैक्स, अलाधूकम्बाई, सत्यामंगल, इरोड-638401” द्वारा स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा के तहत विकास की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए 6.09 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 32 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (क) “बन्नारी रूरल फाउंडेशन, बन्नारी अम्मान सुगरस काम्पलैक्स, अलाधूकम्बाई, सत्यामंगल, इरोड-638401” द्वारा चलायी जा रही “एडवांसमेंट ऑफ रनिंग एंड सपोर्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स” की परियोजना अथवा स्कीम को 6.09 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 98/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3849(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021 (E) dated 23.12.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 32, “Development under health, sanitation and education” by “Bannari Rural Foundation, Bannari Amman Sugars Complex, Alathukombai, Sathyamangal, Erode 638 401”, at the estimated cost of Rs. 6.09 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Advancement of Running and Support Education Institutions”, which is being carried out by “Bannari Rural Foundation, Bannari Amman Sugars Complex, Alathukombai, Sathyamanga, Erode 638 401”, without any change in the approved cost of Rs. 6.09 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 98/2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3850(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं का.आ. 121 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “प्रागुन जिंदल एजुकेशनल ऑर्गनाइजेशन, ग्राम चिकबिदाराकल्लु, तालुका नेलमंगला, डसनपुरा होबली, जिला बैंगलोर-560073” द्वारा जिंदल प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज का जिंदल रूरल कॉलेज के रूप में विस्तारण” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 19 पर अधिसूचित किया था ; जिसे बाद में दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 की अधिसूचना सं का.आ. 2401 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ।

और जबकि दिनांक 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं का.आ. 1796 (अ) द्वारा अनुमोदित लागत को 14 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 29 करोड़ रुपए कर दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “प्रागुन जिंदल एजुकेशनल ऑर्गनाइजेशन, ग्राम चिकबिदाराकल्लु, तालुका नेलमंगला, डसनपुरा होबली, जिला बैंगलोर-560073” द्वारा चलाई जा रही जिंदल प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज का जिंदल रूरल कॉलेज के रूप में विस्तारण” की परियोजना अथवा स्कीम को 10 करोड़ रुपए की कार्पस निधि सहित 29.00 करोड़ रुपए अर्थात् अनावर्ती व्यय हेतु 11 करोड़ रुपए, आवर्ती व्यय के लिए 8 करोड़ रुपए और कार्पस निधि के रूप में 10 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 और 2016-2017 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 99/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3850(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 121(E) dated 12th January, 2009, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 19, Expansion of Jindal Pre University College to Jindal Rural college by Pragun Jindal Educational Organisation, Chikabidarakallu village, Taluka Nelamangala, Dasanpura Hobli, District Bangalore-560073, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09; which was further extended vide notification number S.O. 2401(E) dated 18.10.2011 for three years ending with financial year 2013-14.

And whereas by notification number S.O.1796(E) dated the 21st July, 2010 the estimated cost was amended from Rs.14 crore to Rs.29 crore including a corpus fund of Rs.10 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three year.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Expansion of Jindal Pre University College to Jindal Rural college", is being carried out by Pragun Jindal Educational Organisation, Chikabidarakallu village, Taluka Nelmangala, Dasanpura Hobli, District Bangalore- without any change in the approved cost of Rs. 29.00 crore including corpus fund of Rs. 10 crore i.e., Rs. 11 crore for non-recurring expense, Rs. 8 crore for recurring expense and Rs. 10 crore as corpus fund, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 99/2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3851(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 फरवरी, 1999 की अधिसूचना सं का.आ. 96 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "करुणा सेतु ट्रस्ट, वादनगर-384355, गुजरात द्वारा "वादनगर, जिला मेहसाना, गुजरात में अस्पताल को चलाने, उपकरणों की खरीद और कल्याणकारी गतिविधियों" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 10 जनवरी, 2001 की अधिसूचना सं का.आ. 29 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं का.आ. 381(अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं का.आ.1298 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं का.आ.1146 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ।

और जबकि दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं का.आ.1120 (अ) द्वारा अनुमोदित लागत को 50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 67.48 लाख से बढ़ाकर 142.03 लाख रुपए कर दिया गया था; जिसे दिनांक 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं का.आ. 381(अ) द्वारा अनुमोदित लागत को 50.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 142.00 लाख से बढ़ाकर 184.50 लाख रुपए कर दिया गया था ; जिसे दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं का.आ.1298 (अ) द्वारा अनुमोदित लागत को 50.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 184.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 282.60 लाख रुपए कर दिया गया था ; और जबकि दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना सं का.आ. 1146 (अ) द्वारा अनुमोदित लागत को 50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 282.60 लाख रुपए से बढ़ाकर 50.00 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 373.60 लाख रुपए कर दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पंद्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा “करुणा सेतु ट्रस्ट, वादनगर-384355 द्वारा चलाई जा रही “वादनगर, जिला महसान, गुजरात में अस्पताल को चलाने, उपकरणों की खरीद और कल्याणकारी गतिविधियों” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 11 फरवरी, 1999 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 96 (अ.) (दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 अधिसूचना सं. का.आ. 1120 (अ.) एवं दिनांक 19 मार्च, 2004 की अधिसूचना सं. का.आ. 381(अ) एवं दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1298 (अ) और दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1146(अ.) के साथ पठित) की निम्नलिखित आशय से आगे संशोधित करती है, नामतः-

उक्त अधिसूचना में सारणी में क्रम सं. 5 के सामने दिए कॉलम (4), धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत्य की जाने वाली अधिकतम लागत राशि से संबंधित है, “50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 373.60 लाख रुपये” अक्षर, आंकड़े और शब्दों के स्थान पर “50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 679.20 लाख रुपये” अक्षर, आंकड़े और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 100/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

[NOTIFICATION]

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3851(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.96(E) dated the 11th February, 1999, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, “Running of hospital, purchase of equipments and welfare activities at Vadnagar, Mehsana District, Gujarat” by Karuna Setu Trust, Vadnagar-384355, Gujarat, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O.29(E) dated the 10th January, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 which was extended further vide notification number S.O.381(E) dated the 19th March, 2004 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O. 1298(E) dated 4th June, 2008 for a period of three financial year 2007-08; and which was further extended vide S.O. No. 1146 (E) dated 17.05.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas by notification number S.O.1120(E) dated the 24th October, 2002 the estimated cost was enhanced from Rs. 67.48 lakh to Rs.142.03 lakh including a corpus fund of Rs.50.00 lakh; vide notification number S.O.381(E) dated the 19th March 2004 the estimated cost was further enhanced from Rs.142.00 lakh to Rs.184.50 lakh including a corpus fund of Rs.50.00 lakh; vide notification number S.O. 1298(E) dated 4th June, 2008 the estimated cost was further enhanced from Rs. 184.50 lakh including corpus fund of Rs. 50 lakh to Rs.282.60 lakh including corpus fund of Rs. 50 lakh; and vide notification number S.O. No. 1146 (E) dated 17.05.2010, the estimated cost was further enhanced from Rs.282.60 lakh including corpus fund of Rs. 50 lakh to 373.60 lakh including corpus fund of Rs. 50 lakh.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the project cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

- a) hereby notifies the scheme or project "Running of hospital, purchase of equipments and welfare activities at Vadnagar, Mehsana District, Gujarat", which is being carried out by Karuna Setu Trust, Vadnagar-384355, Gujarat for a period of three more years beginning with financial year 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16;
- (b) further amends the said notification number S.O. 96(E) dated the 11th February, 1999 (read with notification number S.O.1120(E) dated the 24th October, 2002 and notification number S.O.381(E) dated the 19th March 2004 and notification number S.O. 1298(E) dated 4th June, 2008 and notification number S.O. No. 1146 (E) dated 17.05.2010), to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 5, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and words "Rs. 373.60 lakh including a corpus fund of Rs. 50 lakh" the letters, figures and words "Rs.679.20 lakh including a corpus fund of Rs.50 lakh" shall be substituted.

[No. 100/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3852(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं का.आ. 422 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "लायंस काम्प्रेहेन्सिव आई केयर फाउंडेशन मिराज, प्लॉट सं. पी-31, एम. आई. डी. सी. मिराज-416410, जिला-संगली, महाराष्ट्र" द्वारा एमआईडीसी, मिराज, संगली जिला, महाराष्ट्र में आंखों के अस्पताल के विस्तार हेतु भवन का निर्माण, उपकरणों की खरीद, वाहन, साज-सज्जा एवं संचालन" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर विनिर्दिष्ट किया था, और जिसे बाद में दिनांक 12 दिसंबर, 2001 की अधिसूचना सं का.आ. 1212 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 25 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं का.आ. 712 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं का.आ. 1150(अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, और जिसे बाद में दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 की सं का.आ. 2522 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पंद्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, “लायंस काम्प्रेहेन्सिव आई केयर फाउंडेशन मिराज, प्लॉट सं. पी-31, एम. आई. डी. सी. मिराज-416410, जिला-संगली, महाराष्ट्र” द्वारा चलाई गई एमआईडीसी, मिराज, संगली जिला, महाराष्ट्र में आंखों के अस्पताल के विस्तार हेतु भवन का निर्माण, उपकरणों की खरीद, वाहन, साज-सज्जा एवं संचालन” की परियोजना या स्कीम को 297.00 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-2014, 2014-15 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 101/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3852(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.422(E) dated the 19th May, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 13, for Construction of building for expansion of hospital purchase of equipments, vehicle, furnishing and running of Eye Hospital at MIDC, Miraj, Sangli, District of Maharashtra by Lions Comprehensive Eye Care Foundation, Miraj, Plot No. P-31, M.I.D.C., Miraj-416410, District-Sangli, Maharashtra, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 and which was extended for a period of three years beginning with assessment year 2002-03 further vide number S.O.1212(E) dated 12th December, 2001; which was extended further vide notification number S.O.712(E) dated the 25th May, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O. 1150(E) dated 16th July, 2007 for a period of three years beginning with the financial year 2007-08; and which was extended further vide notification number S.O.2522(E) dated 11.10.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project for Construction of building for expansion of hospital purchase of equipments, vehicle, furnishing and running of Eye Hospital at MIDC, Miraj, Sangli, District of Maharashtra which is being carried out by Lions Comprehensive Eye Care Foundation, Miraj, Plot No. P-31, M.I.D.C., Miraj-416410, District-Sangli, Maharashtra without any change in the approved cost of Rs.297.00 lakhs, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 101/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3853(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1052 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “इंडियन मेडिकल सेंटर, पुराना नं० 283, (नया नं. 218), टीटीके रोड, चेन्नई-18, तमिलनाडु” द्वारा “व्यावसायिक शिक्षा के लिए नर्सिंग स्कूल की स्थापना” संबंधी

परियोजना को वित्तीय वर्ष 2012-2013 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 14.17 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा “इंडियन मेडिकल सेंटर, पुराना नं० 283, (नया नं० 218), टी.टी.के. रोड, चेन्नई-18, तमिलनाडु” द्वारा चलायी जा रही “व्यावसायिक शिक्षा के लिए नर्सिंग स्कूल की स्थापना” स्कीम अथवा परियोजना को 14.17 करोड़ रु० की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किए बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 102/2013/ फा.सं. वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3853(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1052(E) dated 11.05.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, “Establishment of school of Nursing for vocational education” by “Indian Medical Centre, Old No. 283, (New No. 218), T.T.K. Road, Chennai 18, Tamil Nadu”, at the estimated cost of Rs.14.17 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Establishment of school of Nursing for vocational education”, which is being carried out by “Indian Medical Centre, Old No.283, (New No. 218), T.T.K. Road, Chennai 18, Tamil Nadu”, without any change in the approved cost of Rs.14.17 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 102/2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM.)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 2013

का.आ. 3854(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की

दिनांक 19 मई, 1998 की अधिसूचना सं. का.आ. 422 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “आई बैंक कोर्डिनेशन एंड रिसर्ज सेंटर, मनीषा हॉस्पिटल, सव्ता मार्ग, वाईकूला, मुंबई-400027 द्वारा “मुंबई और आस-पास क्षेत्रों में “आई हॉप” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1999-2000 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं 9 पर अधिसूचित किया था ; जिसे बाद में दिनांक 12 दिसंबर, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 1216 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 23 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं. का.आ. 394 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; जिसे बाद में दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2386 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था ; और जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1152 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली अवधि से तीन वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पंद्रह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आई बैंक कोर्डिनेशन एंड रिसर्ज सेंटर, मनीषा हॉस्पिटल, सव्ता मार्ग, वाईकूला, मुंबई-400027 द्वारा “मुंबई और आस-पास क्षेत्रों में “आई हॉप” की परियोजना अथवा स्कीम को 112.50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 184.79 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2010-11 अर्थात् 2011-12, 2012-13 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में एतद्वारा अधिसूचित करती है ।

[सं. 103/2013/फा.सं. वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3854(E).— Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.422(E) dated the 19th May, 1998, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, “Project “Eye Hope” at Mumbai and surrounding areas” by Eye Bank Coordination and Research Centre, Manisha Hospital, Sant Savta Marg, Byculla, Mumbai-400027, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000, which was extended further vide notification number S.O.1216(E) dated the 12th December, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003 which was extended further vide notification number S.O.394(E) dated the 23rd March, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O. 2386(E) dated 3rd October, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2007-08; and which was extended further vide notification number S.O. 1152(E) dated 17.05.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Project "Eye Hope" at Mumbai and surrounding areas" which is being carried out by Eye Bank Coordination and Research Centre, Manisha Hospital, Sant Savta Marg, Byculla, Mumbai-400027, without any change in the approved cost of Rs. 184.79 lakh including a corpus fund of Rs. 112.50 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2010-11 i.e., 2010-11, 2011-12 & 2012-13.

[No. 103/2013/F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 2013

का.आ. 3855(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 नवंबर, 2009 की अधिसूचना सं का.आ. 2907(अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट, महात्मा गांधी हॉस्पिटल- इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट, 12-14, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर-302022, राजस्थान द्वारा "महात्मा गांधी हॉस्पिटल- कार्डाईक हॉस्पिटल (200 बिस्तर वाला), की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 19 पर अधिसूचित किया था ; और जिसे बाद में दिनांक 09.10.2013 की अधिसूचना सं का.आ. 2418 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के चार वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट, महात्मा गांधी हॉस्पिटल- इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट, 12-14, आरआईआईसीओ इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, टोंक रोड, जयपुर-302022, राजस्थान द्वारा चलाई जा रही "महात्मा गांधी हॉस्पिटल- कार्डाईक हॉस्पिटल (200 बिस्तर वाला), की परियोजना अथवा स्कीम को 37.00 करोड़ रुपएकी अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 104/2013/ फा.सं. वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3855(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2907 (E) dated 17th November, 2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 19, “Mahatma Gandhi Hospital-Cardiac Hospital (200 bedded hospital)” by India Education Trust, Mahatma Gandhi Hospital- India Education Trust, 12-14, RIICO Institutional Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur-302022, Rajasthan, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2009-10; and which was extended further vide notification number S.O. 2418 (E) dated 09.10.2013 for a period of one year ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond four years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Mahatma Gandhi Hospital-Cardiac Hospital (200 bedded hospital)” which is being carried out by India Education Trust, Mahatma Gandhi Hospital- India Education Trust, 12-14, RIICO Institutional Area, Sitapura, Tonk Road, Jaipur -302022, Rajasthan, without any change in the approved cost of Rs. 37.00 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 104 /2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3856(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 18.03.2010 की अधिसूचना सं का.आ. 614 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने कलकत्ता केंद्र महावीर सेवा सदन, 20, इकबालपुर लेन विला, कोलकाता-700023, पश्चिम बंगाल द्वारा “कृत्रिम पैर, कैलीपर, ढाले (मोलडेड) जूते, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र की स्थापना” की परियोजना को 87 लाख रुपये की अनुमानित लागत से वित्तीय वर्ष 2010-2011 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 18 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए - (क) एतद्वारा कलकत्ता केंद्र महावीर सेवा सदन, 20, इकबालपुर लेन विला, कोलकाता - 700023, पश्चिम बंगाल द्वारा चलाई जा रही “कृत्रिम पैर, कैलीपर, ढाले (मोलडेड) जूते, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं अन्य चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्र की स्थापना” की परियोजना अथवा स्कीम को 87 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में

कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 105/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3856(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 614 (E) dated 18.03.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 18, “Setting up Centre for providing artificial legs, caliper, molded shoes, vocational training and other medical facilities” by “Calcutta Centre Mahavir Seva Sadan, 20, Ekbalpur Lane, Kolkata-700023, West Bengal”, at the estimated cost of Rs.87 lakh, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Setting up Centre for providing artificial legs, caliper, molded shoes, vocational training and other medical facilities”, which is being carried out by “Calcutta Centre Mahavir Seva Sadan, 20, Ekbalpur Lane, Kolkata – 700023, West Bengal”, without any change in the approved cost of Rs. 87 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 105 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3857(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना संख्या सं का.आ. 92(अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने द लेप्रेसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, द लेप्रेसी मिशन, सी एन आई भवन, 16, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली-110001 की “लेप्रेसी मिशन अस्पतालों को सहायता” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-1997 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 6 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 11 मई, 1999 की अधिसूचना सं का.आ. 320 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से दो वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं का.आ. 976 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-2003 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 23 मार्च, 2005 की अधिसूचना सं का.आ. 396 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं का.आ. 1310 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना सं का.आ. 1151 (अ.) द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 2884 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 62 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के सोलह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “द लेप्रसी मिशन ट्रस्ट इंडिया, द लेप्रसी मिशन, सी एन आई भवन, 16, पंडित पंत मार्ग, नई दिल्ली-110001” द्वारा चलाई जा रही “लेप्रसी मिशन अस्पतालों को सहायता” की परियोजना अथवा स्कीम को 5 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 106/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3857(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.92(E) dated the 2nd February, 1996, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 6, “Supporting the Leprosy Mission Hospitals” by The Leprosy Mission Trust India, The Leprosy Mission, CNI Bhavan, 16, Pandit Pant Marg, New Delhi - 110001, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997 which was extended further vide notification number S.O.320(E) dated the 11th May, 1999 for a period of two years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.976(E) dated the 10th September, 2002 for a period of two years beginning with assessment year 2002-2003 which was extended further vide notification number S.O.396(E) dated the 23rd March, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; and which was extended further vide notification number S.O.1310(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2007-08 and which was extended further vide notification number S.O. 1151(E) dated 17th May, 2010 for a period of three years beginning with financial year 2010-11;

And whereas by notification number was also approved vide S.O. No. 2884(E) dated 27.12.2011 the estimated cost was enhanced from Rs. 62 lakh to Rs.5 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond sixteen years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Supporting the Leprosy Mission Hospitals”, which is being carried out by “The Leprosy Mission Trust India, The Leprosy Mission, CNI Bhavan, 16, Pandit Pant Marg, New Delhi - 110001”, without any change in the approved cost of Rs.5 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 106 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3858(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 मार्च, 1997 की अधिसूचना संख्या सं का.आ. 206 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी, एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे, महाराष्ट्र-411029 द्वारा “827, भवानी पेठ, पुणे, महाराष्ट्र में दर्द निवारण केन्द्र(सतसेवा) हेतु उपकरणों व संचालन” की परियोजना को निर्धारण वर्ष 1997-1998 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 20 पर अधिसूचित किया था; जिसे आगे दिनांक 1 अप्रैल, 1999 की अधिसूचना सं. का.आ. 217 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2000-2001 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 10 सितम्बर, 2002 की अधिसूचना सं का.आ. 973 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 4 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं का.आ. 503 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था और जिसे आगे दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं का.आ. 1303 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; और जिसे आगे दिनांक 27 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं का.आ. 856 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के पंद्रह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी, एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे, महाराष्ट्र-411029 द्वारा चलाई जा रही “827, भवानी पेठ, पुणे, महाराष्ट्र में दर्द निवारण केन्द्र (सतसेवा) हेतु उपकरणों व संचालन” की परियोजना अथवा स्कीम को 600.00 लाख रुपये की कार्पस निधि सहित 615.50 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 107/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3858(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.206(E) dated the 17th March, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 20, “ Equipments, running of Pain Relief Centre (SATSEVA) at 827, Bhavani Peth, Pune, Maharashtra” by Care India Medical Society, H-1/13, Salunke Vihar, Pune, Maharashtra-411029, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1997-1998, which was extended further vide notification number S.O.217(E) dated the 1st April, 1999 for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001 which was extended further vide

notification number S.O.973(E) dated the 10th September, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004; which was extended further vide notification number S.O.503(E) dated the 4th April, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006 and which was extended further vide notification number S.O.1303(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09; which was further extended vide S.O. No. 856(E) dated 27.04.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And whereas the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Equipments, running of Pain Relief Centre (SATSEVA) at 827, Bhavani Peth, Pune, Maharashtra" which is being carried out by Care India Medical Society, H-1/13, Salunke Vihar, Pune, Maharashtra-411029, without any change in the approved cost of Rs. 615.50 lakh including a corpus fund of Rs. 600.00 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15 i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 107/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3859(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 135 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी, एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे, महाराष्ट्र-411048 द्वारा "मात्रुसेवा (महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम)" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० 10 पर अधिसूचित किया था और जिसे आगे दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1303 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-2009 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था; जिसे आगे दिनांक 27 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 855 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के नौ वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केयर इंडिया मेडिकल सोसायटी, एच-1/13, सालुंके विहार, पुणे, महाराष्ट्र-411029 द्वारा चलाई जा रही "मात्रुसेवा (महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम)" की परियोजना अथवा स्कीम को 2.70 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 108/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3859(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.135(E) dated the 3rd February, 2006, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, “Matruseva (Health maintenance program for women)” by Care India Medical Society, H-1/13, Salunke Vihar, Pune - 411048, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2005-2006 and which was extended further vide notification number S.O 1303(E) dated 4th June, 2008 for a further period of three years beginning with financial year 2008-09; which was further extended vide notification number S.O. 855(E) dated 27.04.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Matruseva (Health maintenance program for women)” which is being carried out by Care India Medical Society, H-1/13, Salunke Vihar, Pune - 411048, without any change in the approved cost of Rs.2.70 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with financial year 2014-15 i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 108/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3860(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना संख्या सं का. आ. 1794 (अ) द्वारा केन्द्र सरकार ने श्री विद्याभारती वनवासी शिक्षण समिति, नर्मदा 44, सरदार नगर, ए टी एण्ड पी ओ - वालिया, तालुक - वालिया, जिला भरूच - 393 135 द्वारा “माधव विद्यापीठ” जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-2008 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था; और जिसे आगे दिनांक 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं का. आ. 1786 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-2013 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 27 अप्रैल, 2011 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 868 द्वारा अनुमानित लागत को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10 करोड़ रुपये कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,- (क) श्री विद्याभारती वनवासी शिक्षण समिति, नर्मदा 44, सरदार नगर, ए टी एण्ड पी ओ - वालिया, तालुक - वालिया, जिला भरूच - 393 135 द्वारा चलाई जा रही “माधव विद्यापीठ” जनजातीय विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालय” की परियोजना अथवा स्कीम को 7 करोड़ रुपये की कार्पस निधि सहित 10 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना, वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि

अर्थात् 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 109/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3860(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1794(E) dated the 23rd October, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 15, “Madhav Vidhyapith” residential school for tribal students” by Shri Vidyabharati Vanvasi Shikshan Samiti, Narmada 44, Sardar Nagar, AT & PO – Valia, Tal – Valia, District Bharuch – 393 135, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; and which was further extended vide S.O. No.1786(E) dated 21.07.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And, whereas, vide notification number S.O. No.868 (E) dated 27.04.2011 the project cost was enhanced from Rs. 5 crore to Rs. 10 crore including a corpus fund of Rs. 7 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),- hereby notifies the scheme or project “Madhav Vidhyapith” residential school for tribal students”, which is being carried out by Shri Vidyabharati Vanvasi Shikshan Samiti, Narmada 44, Sardar Nagar, AT & PO – Valia, Tal – Valia, District Bharuch – 393 135, without any change in the approved cost of Rs.10.00 crore including a corpus fund of Rs. 7 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 109 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3861(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं. का. आ. 92 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “करुणा ट्रस्ट, 22, गौतम नगर, नजदीक नारणपुरा-रेलवे क्रॉसिंग, अहमदाबाद-13” द्वारा चलाई जा रही “पूरे गुजरात में आंख का ऑपरेशन, पोलियो ऑपरेशन कैंप आयोजित करना, ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा और एम्बुलेंस सेवा” संबंधी परियोजना को निर्धारण वर्ष 1996-97 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 16 जनवरी, 1998 की अधिसूचना सं. का. आ. 57 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 1999-2000 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 539 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 2 फरवरी, 2005 की अधिसूचना सं. का. आ. 143 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1307 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था और जिसे

बाद में दिनांक 21 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. का.आ. 1786 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 539 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 94.00 लाख रु. से बढ़ाकर 128.00 लाख रु. और दिनांक 4 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1307 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 128.00 लाख रु. से आगे बढ़ाकर 153.00 लाख रु. कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 18 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “करुणा ट्रस्ट, 22, गौतम नगर, नजदीक नारणपुरा-रेलवे क्रॉसिंग, अहमदाबाद-13” द्वारा चलाई जा रही “पूरे गुजरात में आंख का ऑपरेशन, पोलियो ऑपरेशन कैंप आयोजित करना, ऑक्सीजन सिलेंडर सेवा और एम्बुलेंस सेवा” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 2 फरवरी, 1996 की अधिसूचना सं. का. आ. 92 (अ) (दिनांक 20 जून, 2001 की अधिसूचना सं. का. आ. 539 (अ) के साथ पठित) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 5 के सामने सारणी में “153 लाख रुपये” संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “200 लाख रुपये” संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 110/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3861(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.92(E) dated the 2nd February, 1996, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, “Conduct eye operation, polio operation camps, oxygen cylinder seva and ambulance service all over Gujarat” by Karuna Trust, 22, Gautam Nagar, Near Naranpura-Railway Crossing, Ahmedabad-13, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1996-1997, which was extended further vide notification number S.O.57(E) dated the 16th January, 1998 for a period of three years beginning with assessment year 1999-2000 which was extended further vide notification number S.O.539(E) dated the 20th June, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2002-2003, which was extended further vide notification number S.O.143(E) dated the 2nd February, 2005 for a period of three years beginning with financial year 2004-2005; which was extended further vide notification number S.O.1307(E) dated 4th June, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2007-08; and which was further extended vide notification number S.O. 1786(E) dated 21.07.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas by notification number S.O.539(E) dated the 20th June, 2001 the estimated cost was enhanced from Rs. 94.00 lakh to Rs.128.00 lakh and vide notification number S.O.1307(E) dated 4th June, 2008 the estimated cost was enhanced further from Rs. 128.00 lakh to 153.00 lakh;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the project cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

a) hereby notifies the scheme or project "Conduct eye operation, polio operation camps, oxygen cylinder seva and ambulance service all over Gujarat", which is being carried out by Karuna Trust, 22, Gautam Nagar, Near Naranpura-Railway Crossing, Ahmedabad-13, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16;

b) further amends the said notification number S.O.92(E) dated the 2nd February, 1996 (read with notification number S.O.539(E) dated the 20th June, 2001), to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 5, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under Section 35 AC, for the letters, figures and words "Rs. 153 lakh", the letters, figures and words "Rs.200 lakh" shall be substituted.

[No. 110/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3862(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 27 अगस्त, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 915 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "प्रथम दिल्ली एजुकेशन इनिशिएटिव, तीसरा तल, आईसीआईसीआई लि. एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-3 द्वारा चलाई जा रही "दिल्ली में प्रथम दिल्ली एजुकेशन इनिशिएटिव" की परियोजना को निर्धारण वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 15 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 3 फरवरी, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 149 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 2375 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 14 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ. 1386 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 12 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) "प्रथम दिल्ली

एजुकेशन इनिशिएटिव, तीसरा तल, आईसीआईसीआई लि. एनबीसीसी प्लेस, भीष्म पितामह मार्ग, प्रगति विहार, नई दिल्ली-3 द्वारा चलाई जा रही “दिल्ली में प्रथम दिल्ली एजुकेशन इनिशिएटिव” की परियोजना अथवा स्कीम को 1229.38 लाख रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 व 2016 -17 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 111/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3862(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.915(E) dated the 27th August, 2002, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 15, “Pratham Delhi Education Initiative at Delhi” by Pratham Delhi Education Initiative, 3rd Floor, ICICI Ltd., NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, New Delhi - 110003, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004, which was extended further vide notification number S.O.149(E) dated the 3rd February, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006 and which was extended further vide notification number S.O.2375(E) dated the 3rd October, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09; which was further extended vide notification number S.O. 1386(E) dated 14.06.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond twelve years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Pratham Delhi Education Initiative at Delhi” being carried out by Pratham Delhi Education Initiative, 3rd Floor, ICICI Ltd., NBCC Place, Bhisham Pitamah Marg, Pragati Vihar, New Delhi - 110003, without any change in the approved cost of Rs.1229.38 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with the financial year 2014-15 i.e., financial year 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 111/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3863(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “गांधी एजुकेशनल सोसायटी, कदाबागरे क्रॉस, बापाग्राम पोस्ट, मगदी मेन रोड बेंगलुरु-91 द्वारा चलाई जा रही “वृद्धाश्रम की आवर्ती लागत, महिलाओं के लिए कानूनी सहायता केंद्र, बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय कार्यालय की प्रशासनिक लागत” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 25 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 1.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 18 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “गांधी एजुकेशनल सोसायटी, कदाबागेरे क्रॉस, बापाग्राम पोस्ट, मगदी मेन रोड बेंगलुरु-91 द्वारा चलाई जा रही “वृद्धाश्रम की आवर्ती लागत, महिलाओं के लिए कानूनी सहायता केंद्र, बेरोजगार महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय कार्यालय की प्रशासनिक लागत” संबंधी परियोजना अथवा स्कीम को 25 लाख रुपये की कॉर्पस निधि सहित 1.20 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 112/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3863(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No.1649 (E) dated 12.07.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 18 “Recurring cost of old age home, legal aid centre for women, vocational training centre for unemployed women, administration cost of central office” by “Gandhi Educational Society, Kadabagere Cross, Bapagrama Post, Magadi Main Road, Bangalore –91”, at the estimated cost of Rs.1.20 crore including a corpus fund of Rs. 25 lakh., as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years; Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Recurring cost of old age home, legal aid centre for women, vocational training centre for unemployed women, administration cost of central office”, which is being carried out by “Gandhi Educational Society, Kadabagere Cross, Bapagrama Post, Magadi Main Road, Bangalore –91”, without any change in the approved cost of Rs.1.20 crore including a corpus fund of Rs. 25 lakh., as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 112/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3864(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सूरत मानव सेवा

संघ, छनयादो नया सिविल अस्पताल परिसर, मजुरा गेट, सूरत 395001, गुजरात द्वारा मरीजों के लिए चलाए जा रहे डायलिसिस केंद्र” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक कॉर्पस निधि के रूप में 10 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 30 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) “सूरत मानव सेवा संघ, छनयादा नया सिविल अस्पताल परिसर, मजुरा गेट, सूरत 395001, गुजरात द्वारा मरीजों के लिए चला जा रहे डायलिसिस केंद्र” संबंधी परियोजना अथवा स्कीम को कॉर्पस निधि के रूप में 10 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 113/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3864(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No.1649(E) dated 12.07.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 30 “Dialysis Centre for Patients” by “Surat Manav Seva Sangh, Chhanyado, New Civil Hospital Campus, Majura Gate, Surat 395001, Gujarat”, at the estimated cost of Rs.10 crore as a corpus fund, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Dialysis Centre for Patients”, which is being carried out by “Surat Manav Seva Sangh, Chhanyado, New Civil Hospital Campus, Majura Gate, Surat 395001, Gujarat”, without any change in the approved cost of Rs.10 crore as a corpus fund, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 113/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3865(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 11.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “मद्रास एग्मोर लायंस ब्लड बैंक एवं रिसर्च फाउंडेशन, 130, मार्शल रोड, एग्मोर, चेन्नई-600008” द्वारा ब्लड बैंक चिकित्सा उपकरण एवं सुविधा विस्तार की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 5.04 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 12 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -(क) “मद्रास एग्मोर लायंस ब्लड बैंक एवं रिसर्च फाउंडेशन, 130, मार्शल रोड, एग्मोर, चेन्नई-600008” द्वारा चलायी जा रही “ब्लड बैंक चिकित्सा उपकरण एवं सुविधा विस्तार” की परियोजना अथवा स्कीम को 5.04 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 114/2013 फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3865(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.1052(E) dated 11.05.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 12 “Blood Bank Medical Equipment and facilities expansion project” by “Madras Egmore Lions Blood Bank & Research Foundation, 130, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008”, at the estimated cost of Rs.5.04 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Blood Bank Medical Equipment and facilities expansion project”, which is being carried out by “Madras Egmore Lions Blood Bank & Research Foundation, 130, Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008”, without any change in the

approved cost of Rs.5.04 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 114 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसंबर, 2013

का.आ. 3866(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12. 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “बुद्धा विकलांग विकास संस्थान, भलुआ रोड, दोमुहान, बोध गया, जिला-गया, बिहार-824 231” द्वारा “बाल श्रमिकों के लिए स्कूल, विकलांग विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, अशक्त व्यक्तियों के लिए, समुदाय आधारित पुनर्वास की आवृत्ति लागत और कार्पस निधि” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाली वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 4.66 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के तीन वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -(क) “बुद्धा विकलांग विकास संस्थान, भलुआ रोड, दोमुहान, बोध गया, जिला-गया, बिहार-824 231” द्वारा चलाई जा रही “बाल श्रमिकों के लिए स्कूल, विकलांग विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, अशक्त व्यक्तियों के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास की आवृत्ति लागत और कार्पस निधि” की परियोजना अथवा स्कीम को 50 लाख रुपए की कार्पस निधि सहित 4.66 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है ।

[सं. 115/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3866(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 3021 (E) dated 23.12.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10 “Recurring cost of school for child labours, vocational training for handicapped students, community based rehabilitation for disabled persons and for a corpus fund” by “Budha Viklang Vikas Sansthan, Bhalua Road Domuhan, Bodh Gaya, District Gaya, Bihar 824 231”, at the estimated cost of Rs. 4.66 crore including a corpus fund of Rs. 50 lakh, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), —hereby notifies the scheme or project “Recurring cost of school for child labours, vocational training for handicapped students, community based rehabilitation for disabled persons and for a corpus fund”, which is being carried out by “Budha Viklang Vikas Sansthan, Bhalua Road Domuhan, Bodh Gaya, District Gaya, Bihar 824 231”, without any change in the approved cost of Rs. 4.66 crore including a corpus fund of Rs. 50 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 115/2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3867(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 7 सितंबर, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 1501 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री मुनिकुल ब्रह्माचर्य आश्रम वेद संस्थान, बरुणदानी, राजस्थान ” द्वारा “श्रीमती लाड़ देवी शर्मा संस्कृत महाविद्यालय” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से आरंभ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1795 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए “श्री मुनिकुल ब्रह्माचर्य आश्रम वेद संस्थान बरुणदानी, राजस्थान ” द्वारा चलाई जा रही “श्रीमती लाड़ देवी शर्मा संस्कृत महाविद्यालय” की परियोजना अथवा स्कीम को 2.36 करोड़ रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[सं. 116/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3867(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1501(E) dated 7th September, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 9, “Smt. Lad Devi Sharma Sanskrit Mahavidyalaya”, by “Shree Munikul Brahmacharya Ashram Ved Sansthan Barundani, Rajasthan”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; and

which was extended further vide notification number S.O.1795(E) dated 21.07.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project "Smt. Lad Devi Sharma Sanskrit Mahavidyalaya", is being carried out by "Shree Munikul Brahmcharya Ashram Ved Sansthan Barundani, Rajasthan", without any change in the approved cost of Rs. 2.36 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 116/2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3868(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1462 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुम्बई-4000494" द्वारा "उत्तर प्रदेश के लिए मध्याह्न भोजन" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से आरंभ होने वाली दो वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 10 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1787 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के पांच वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है ;

इसलिए, अब, केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, -(क) "इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन, हरे कृष्णा लैंड, जुहू, मुम्बई-4000494" द्वारा चलायी जा रही "उत्तर प्रदेश के लिए मध्याह्न भोजन" की परियोजना अथवा स्कीम को 712.65 लाख रुपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 और 2015-2016 के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 117/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3868(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1462(E) dated 17th June, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 10, “Mid day meal project for Uttar Pradesh” by “Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049”, as an eligible project or scheme for a period of two years beginning with financial year 2008-09; and which was further extended vide notification number S.O. 1787(E) dated 21.07.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond five years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Mid day meal project for Uttar Pradesh”, is being carried out by Iskcon Food Relief Foundation, Hare Krishna Land, Juhu, Mumbai 400 049, without any change in the approved cost of Rs. 712.65 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No.117/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3869(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सोलापुर जिला मगास समाज सेवा, वी ए संशोधन संस्था, 15-ए, जवाहर हाउसिंग सोसायटी, सिविल लाइन्स, सोलापुर-413003” द्वारा “दलित उत्थान, खानाबदोश जनजातियों को स्वास्थ्य, भोजन एवं शिक्षा प्रदान करना” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 1 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 583.63 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7 पर अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “सोलापुर जिला मगास समाज सेवा, वी ए संशोधन संस्था, 15-ए, जवाहर हाउसिंग सोसायटी, सिविल लाइन्स, सोलापुर-413003” द्वारा चलाई जा रही “दलित उत्थान, खानाबदोश जनजातियों को स्वास्थ्य, भोजन एवं शिक्षा प्रदान करना” संबंधी परियोजना अथवा स्कीम को 1 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि सहित 583.63 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों

की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 118/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3869(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No. 3021 (E) dated 23.12.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 7 “Uplift Downtroddens’ providing health, food & education to Nomadic Tribal”, by “Solapur Zilla Magas Samaj Seva, Va Sanshodhan Sanstha, 15-A, Jawahar Housing Society, Civil Lines, Solapur 413 003”, at the estimated cost of Rs.583.63 lakh including corpus fund of Rs.1 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to Section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Uplift Downtroddens’ providing health, food & education to Nomadic Tribal”, which is being carried out by “Solapur Zilla Magas Samaj Seva, Va Sanshodhan Sanstha, 15-A, Jawahar Housing Society, Civil Lines, Solapur-413 003”, without any change in the approved cost of Rs. 583.63 lakh including corpus fund of Rs.1 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 118 /2013 / F.No.V-27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3870(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 अक्टूबर, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1794 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “नाओतौमी ग्रामीण विकास एसोसिएशन, कथिको करोंग, सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर, डाकखाना करोंग, पिन-795007” द्वारा “जरूरतंद बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों तथा एड्स/एचआईवी/एसटीडी नियंत्रण हेतु पुनर्वास केंद्र” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 10.42 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 14 पर अधिसूचित किया था; जिसे बाद में दिनांक 22.03.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 655 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर

नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “नाओतौमी ग्रामीण विकास एसोसिएशन, कथिको करोंग, सेनापति डिस्ट्रिक्ट मणिपुर, डाकखाना करोंग, पिन-795007” द्वारा “जरूरतंद बच्चों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों तथा एड्स/एचआईवी/एसटीडी नियंत्रण हेतु पुनर्वास केंद्र” की परियोजना अथवा स्कीम को 10.42 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 119/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3870(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1794(E) dated the 23rd October, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 14, “Rehabilitation centre for the needy children, youth, women, aged and AIDS/HIV/STD control” by “Naotoumai Rural Development Association, Kathikho Karong, Senapati District, Manipur, P.O. Karong, Pin – 795 007”, at the estimated cost of Rs.10.42 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; and which was further extended vide notification number S.O.655(E) dated 22.03.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project “Rehabilitation centre for the needy children, youth, women, aged and AIDS/HIV/STD control” by “Naotoumai Rural Development Association, Kathikho Karong, Senapati District, Manipur, P.O. Karong, Pin – 795 007”, without any change in the approved cost of Rs.10.42 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 119 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3871(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (i) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना सं. का. आ. 461 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “सोसायटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ सासून हॉस्पिटल, कमरा सं0 87, सासून जनरल हॉस्पिटल, पुणे-411001” द्वारा “मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों हेतु गृह का निर्माण तथा परियोजना का संचालन” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 7

पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 493 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1145 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था;

और जबकि दिनांक 17.05.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1145 (अ) के द्वारा परियोजना लागत को 2 करोड़ रूपए की कार्पस निधि सहित 3.00 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रूपए की कार्पस निधि सहित 5 करोड़ रूपए कर दिया गया;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “सोसायटी ऑफ फ्रेंड्स ऑफ सासून हॉस्पिटल, कमरा सं. 87, सासून जनरल हॉस्पिटल, पुणे-411001” द्वारा “मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों हेतु गृह का निर्माण तथा परियोजना का संचालन” की परियोजना अथवा स्कीम को 2 करोड़ रूपए की कार्पस निधि सहित 5 करोड़ रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 120/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3871(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), number S.O.461(E) dated the 5th April, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 7, for Construction of home for mentally and physically challenged children and running of the project by Society of friends of Sassoon Hospital, Room No.87, Sassoon General Hospitals, Pune-411001, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O.493(E) dated 29th March, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2007-08; and which was further extended vide notification number S.O. 1145(E) dated 17.05.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas vide Notification number S.O. 1145(E) dated 17.05.2010 the project cost was enhanced from Rs.3.00 crore including a corpus fund of Rs.2 crore to Rs.5.00 crore including a corpus fund of Rs.2 crore.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub- section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project for Construction of home for mentally and physically challenged children and running of the project which is being carried

out by Society of friends of Sassoon Hospital, Room No.87, Sassoon General Hospitals, Pune-411001, without any change in the approved cost of Rs.5.00 crore including a corpus fund of Rs.2 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing from the financial year 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 120 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3872(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “नवसारी कैंसर केयर फाउंडेशन, 5 वां तल, आदित्य कॉम्प्लैक्स, फुहारा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, नवसारी-396445” द्वारा “नवसारी कैंसर केयर फाउंडेशन ऑनकोलॉजी विंग” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं०. 26 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 29.09.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2359 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि दिनांक 29.09.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2359 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 4.00 करोड़ रु. से बढ़ाकर 10 करोड़ रूपए की कॉर्पस निधि सहित 18.72 करोड़ रूपए कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत में भी वृद्धि करने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए —(क) “नवसारी कैंसर केयर फाउंडेशन, 5 वां तल, आदित्य कॉम्प्लैक्स, फुहारा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, नवसारी-396445” द्वारा चलाई जा रही “नवसारी कैंसर केयर फाउंडेशन ऑनकोलॉजी विंग” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है।

(ख) दिनांक 29 मार्च, 2007 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 466 (अ) दिनांक 29.09.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 2359 (अ) के साथ पठित) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामतः—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 2 के सामने सारणी में “10 करोड़ रूपए की कॉर्पस निधि सहित 18.72 करोड़ रूपए” संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “14 करोड़ रूपए की कॉर्पस निधि सहित 25.42 करोड़ रूपए” संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 121/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3872(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 466(E) dated 29th March, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 26, “Navsari Cancer Care Foundation oncology wing” by “Navsari Cancer Care Foundation, 5th Floor, Aditya Complex, Near Fuwara Telephone Exchange, Navsari –396445”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; which was further extended vide notification number S.O. 2359(E) dated 29.09.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas vide notification number S.O. 2359(E) dated 29.09.2010, the project cost was enhanced from Rs.4.00 crore to Rs.18.72 crore including corpus fund of Rs.10 crore.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and also enhancement in the project cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

a) hereby specifies the scheme or project “Navsari Cancer Care Foundation oncology wing”, which is being carried out by “Navsari Cancer Care Foundation, 5th Floor, Aditya Complex, Near Fuwara Telephone Exchange, Navsari –396445”, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16;

(b) further amends the said notification number S.O. 466(E) dated the 29th March, 2007 (read with notification number S.O. 2359(E) dated 29.09.2010), to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.18.72 crore including corpus fund of Rs.10 crore”, the letters, figures and words “Rs.25.42 crore including a corpus fund of Rs.14 crore” shall be substituted.

[No. 121 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3873(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 29 मार्च, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 466 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामीगल पीतारोहनम सिल्वर जुबली स्मरणोत्सव मेडिकल फाउंडेशन, शारदा धनवंतरी मेडिकल सेंटर एंड शारदा धनवंतरी हीमोडायलिसिस सेंटर, प्रथम क्रॉस, शकरपुरम, बेंगलुरु-560004 द्वारा चलाए जा रहे शारदा धनवंतरी मेडिकल सेंटर एंड शारदा धनवंतरी हीमोडायलिसिस सेंटर” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 13 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 30 दिसंबर, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3061 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर

नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “श्री अभिनव विद्यातीर्थ महास्वामीगल पीतारोहनम सिल्वर जुबली स्मरणोत्सव मेडिकल फाउंडेशन, शारदा धनवंतरी मेडिकल सेंटर एंड शारदा धनवंतरी हीमोडायलिसिस सेंटर, प्रथम क्रॉस, शंकरपुरम, बंगलुरु-560004 द्वारा चलाए जा रहे शारदा धनवंतरी मेडिकल सेंटर एंड शारदा धनवंतरी हीमोडायलिसिस सेंटर” की परियोजना अथवा स्कीम को 1.02 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 122/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3873(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 466(E) dated 29th March, 2007, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 13, Sharada Dhanvanthari Medical Centre & Sharada Dhanvantari Haemodialysis Centre by Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamigal Peetarohanam Silver Jubilee Commemoration Medical Foundation, Sharada Dhanvanthari Medical Centre & Sharada Dhanvantari Haemodialysis Centre, 1st Cross, Shankarapuram, Bangalore - 560 004, at the estimated cost of Rs.1.02 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2007-08; which was extended further vide notification number S.O. 3061(E) dated 30.12.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project, “Sharada Dhanvanthari Medical Centre & Sharada Dhanvantari Haemodialysis Centre”, which is being carried out by “Sri Abhinava Vidyatheertha Mahaswamigal Peetarohanam Silver Jubilee Commemoration Medical Foundation, Sharada Dhanvanthari Medical Centre & Sharada Dhanvantari Haemodialysis Centre, 1st Cross, Shankarapuram, Bangalore - 560 004”, without any change in the approved cost of Rs.1.02 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 122/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3874(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 5 अप्रैल, 2004 की अधिसूचना सं. का. आ. 461 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “डीन फाउंडेशन, ओल्ड नं 73/न्यू नं. 59, दूसरी गली, एस्पीरोन गार्डन कालोनी, कलपौक, चेन्नई-600010” द्वारा चलाई जा रही “एड्स के लिए चलाए जा रहे (क) होस्पाइस आऊट पैशेंट्स और होम बेस्ड प्रोग्राम (पहले से चल रहा है) (ख) मोबाइल होस्पाइस रूल

आऊटरीच प्रोग्राम (ग) होम बेस्ड एंड रूरल आऊटरीच कम्युनिटी इंटीग्रेटेड होस्पाइस प्रोग्राम” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 9 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 7 सितंबर, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1505 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 17 मई, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1153 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 9 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) “डीन फाउंडेशन, ओल्ड नं 73/न्यू नं 59, दूसरी गली, एस्पीरोन गार्डन कालोनी, कल्पौक, चेन्नई-600010” द्वारा चलाई जा रही “एड्स के लिए चलाए जा रहे (क) होस्पाइस आऊट पैशेंट्स और होम बेस्ड प्रोग्राम (पहले से चल रहा है) (ख) मोबाइल होस्पाइस रूरल आऊटरीच प्रोग्राम (ग) होम बेस्ड एंड रूरल आऊटरीच कम्युनिटी इंटीग्रेटेड होस्पाइस प्रोग्राम” की परियोजना अथवा स्कीम को 3.43 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 123/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3874(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.461(E) dated the 5th April, 2004, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961, the Central Government had specified at serial number 9, “(a) Hospice out patients and Home based programme (already running) (b) Mobile Hospice Rural outreach Programme (c) Home based and rural outreach community Integrated Hospice programme for AIDS” by “Dean Foundation, Old No.73/ New No.59, Second Street, Asipron Garden Colony, Kalpauk, Chennai-600010”, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial years 2004-2005 and which was extended further vide notification number S.O. 1505(E) dated 7th September, 2007 for a period of three years beginning with financial years 2007-08; and which was further extended vide S.O. No.1153(E) dated 17.05.2010 for a period of three years ending with financial year 2012-13.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond nine years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “(a) Hospice out patients and Home based programme (already running) (b) Mobile Hospice Rural outreach Programme (c) Home based and rural outreach community Integrated Hospice programme for AIDS”, which are being carried out by “Dean Foundation, Old No.73/ New No.59, Second Street, Asipron Garden Colony, Kalpauk, Chennai-600010”, without any change in the approved cost of Rs.3.43 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year 2013-14 i.e. 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 123/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3875(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 6 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2545 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री गुरु राम दास चेरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट, मेहता रोड, नजदीक होथियान गांव, अमृतसर-143006, पंजाब” द्वारा चलाई जा रही “हेल्थ केयर प्रोजेक्ट (हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज)” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2011-12 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए 32.40 करोड़ रूपए की लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 28 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 14 जून, 2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1378 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) “श्री गुरु राम दास चेरिटेबल हॉस्पिटल ट्रस्ट, मेहता रोड, नजदीक होथियान गांव, अमृतसर-143006, पंजाब” द्वारा चलाई जा रही “हेल्थ केयर प्रोजेक्ट (हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज)” की परियोजना अथवा स्कीम को 32.40 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 व 2016 -17 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 124/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3875(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2545(E) dated 6.10.2009, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 28, “Health care project (hospital and medical college)” by “Sri Guru Ram Das Charitable Hospital Trust, Mehta Road, Near Hothian Village, Amritsar-143006, Punjab”, at the estimated cost of Rs. 32.40 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years ending with financial year 2011-12; which was extended further vide notification number S.O. 1378(E) dated 14.06.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby notifies the scheme or project, "Health care project (hospital and medical college)", which is being carried out by "Sri Guru Ram Das Charitable Hospital Trust, Mehta Road, Near Hothian Village, Amritsar-143006, Punjab", without any change in the approved cost of Rs.32.40 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2014-15 i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

[No. 124 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3876(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 जुलाई, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1649 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "सोलापुर जिला मगस समाज सेवा, वा संशोधन संस्था, 15-ए, जवाहर हाऊसिंग सोसायटी, सिविल लाइन्स, सोलापुर-413003" द्वारा चलाए जा रही " i) एस.एस. सय्याजी महाराज बागडे प्राथमिक आश्रम शाला, ii) सावित्रीबाई खदतारे जुनिया कॉलेज, iii) लड़कों के लिए छात्रावास, और iv) लड़कियों के लिए छात्रावास" की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 463.71 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 25 पर अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) "सोलापुर जिला मगस समाज सेवा, वा संशोधन संस्था, 15-ए, जवाहर हाऊसिंग सोसायटी, सिविल लाइन्स, सोलापुर-413003" द्वारा चलाए जा रही " i) एस.एस. सय्याजी महाराज बागडे प्राथमिक आश्रम शाला, ii) सावित्रीबाई खदतारे जुनिया कॉलेज, iii) लड़कों के लिए छात्रावास, और iv) लड़कियों के लिए छात्रावास" की परियोजना अथवा स्कीम को 463.71 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 125/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3876(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1649 (E) dated 12.07.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 25 "i) S.S Sayyaji Maharaj Bagade Prathmik Ashram Shala, ii) Savitribai Khadtare Junior College, iii) Boy's hostel, and iv) Girl's Hostel", by "Solapur Zilla Magas Samaj Seva, Va Sanshodhan Sanstha, 15-A, Jawahar Housing

Society, Civil Lines, Solapur 413 003”, at the estimated cost of Rs.463.71 lakh, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “i) S.S Sayyaji Maharaj Bagade Prathmik Ashram Shala, ii) Savitribai Khadtare Junior College, iii) Boy’s hostel, and iv) Girl’s Hostel”, which is being carried out by “Solapur Zilla Magas Samaj Seva, Va Sanshodhan Sanstha, 15-A, Jawahar Housing Society, Civil Lines, Solapur 413 003”, without any change in the approved cost of Rs.463.71 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial year, 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 125/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3877(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 11 मई, 2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 1052 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3010 सोशल वेलफेयर सोसायटी @, 56-57, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110062” द्वारा चलाए जा रही “रोटेटरी आई केयर इन्स्टीट्यूट” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए 8.17 करोड़ रु. की लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं० पर अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए-(क) “रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3010 सोशल वेलफेयर सोसायटी @, 56-57, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-110062” द्वारा चलाए जा रही “रोटेटरी आई केयर इन्स्टीट्यूट” की परियोजना अथवा स्कीम को 8.17 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 126/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3877(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1052(E) dated 11.05.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number “Rotary Eye Care Institute” by “Rotary District 3010 Social Welfare Society®, 56-57, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110062”, at the estimated cost of Rs. 8.17 crore, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project “Rotary Eye Care Institute”, which is being carried out by “Rotary District 3010 Social Welfare Society®, 56-57, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110062”, without any change in the approved cost of Rs. 8.17 crore, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15 and 2015-16.

[No. 126/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3878(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं. का. आ. 267 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट, जयलक्ष्मी एस्टेट्स, 8, हैडोस रोड, चेन्नई-600006” द्वारा “तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 30 गांवों में ग्रामीण विकास परियोजना” को निर्धारण वर्ष 2000-01 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 8 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 24 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं. का.आ. 1116 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2003-04 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 4 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. का. आ. 509 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 242 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था, जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1390 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 896 (अ) द्वारा अनुमोदित परियोजना में 8 गांवों नामतः खक्कोन्डापल्ली, मुकांडापल्ली, माथीगिरी, बेलागोंडापल्ली, बैथलापल्ली, पड़ी, वनग्राम तथा मापेडु का समावेशन तथा दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 242 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 7.00 करोड़ ₹0 से बढ़ाकर 8.50 करोड़ ₹0 कर दिया गया तथा परियोजना के नाम को ‘ग्रामीण विकास परियोजना’ से बदलकर “ग्रामीण विकास तथा वन-रोपण” कर दिया गया; तथा दिनांक 28.10.2009 के शुद्धिपत्र सं. का. आ. 2716 (अ) द्वारा हितधारियों की संख्या को 17 से बढ़ाकर 30 कर दिया गया था;

और जबकि दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1390 (अ) द्वारा परियोजना लागत को 850.00 लाख रूपए से बढ़ाकर 12.85 करोड़ रूपए कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 15 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत में भी वृद्धि करने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (क) “श्रीनिवासन सर्विसेज ट्रस्ट, जयलक्ष्मी एस्टेट्स, 8, हैडोस रोड, चेन्नई-600006” द्वारा चलाई जा रही “तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 30 गांवों में ग्रामीण विकास परियोजना” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 व 2016 -17 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 23 मार्च, 2000 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 267 (अ) (दिनांक 21 जनवरी, 2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 242 (अ) तथा 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1390 (अ) के साथ पठित) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 8 के सामने सारणी में “12.85 करोड़ रुपये” संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “18.95 करोड़ रुपये” संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 127/2013/ फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3878(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.267(E) dated the 23rd March, 2000, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 8, “Rural Development Projects at 30 Villages of Tamilnadu, Karnataka and Maharashtra” by Srinivasan Services Trust, Jayalakshmi Estates, 8, Haddows Road, Chennai - 600006, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 2000-2001, which was extended further vide notification number S.O.1116(E) dated the 24th October, 2002 for a period of three years beginning with assessment year 2003-2004 and which was extended further vide notification number S.O.509(E) dated the 4th April, 2006 for a period of three years beginning with financial year 2005-2006, which was extended further vide notification number S.O.242(E) dated 21st January, 2009 for a period of three years beginning with the financial year 2008-09; which was extended further vide notification number S.O. 1390(E) dated 14.06.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas by notification number S.O.896(E) dated the 5th August, 2003 the inclusion of 8 villages, namely, Khhakondapalli, Mookandapalli, Mathigiri, Belagondapalli, Bethlapalli, Padi, Vanagaram and Mappedu in the approved project; and vide notification number S.O.242(E) dated 21st January, 2009 the estimated cost was enhanced from Rs.7.00 crore to 8.50 crore; and the project name was changed from “Rural Development project” to “Rural Development and afforestation”; and vide corrigendum number S.O. 2716(E) dated 28.10.2009 the number of beneficiaries was increased from 17 to 30;

And whereas vide notification number S.O. 1390(E) dated 14.06.2011, the project cost was enhanced from Rs.850.00 lakh to Rs.12.85 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond fifteen years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and enhancement in the project cost.

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

a) hereby notifies the scheme or project "Rural Development Projects at 30 Villages of Tamilnadu, Karnataka and Maharashtra", which is being carried out by Srinivasan Services Trust, Jayalakshmi Estates, 8, Haddows Road, Chennai - 600006 for a further period of three years commencing with financial year 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17.

(b) further amends the said notification number S.O.267(E) dated the 23rd March, 2000 (read with notification number S.O.242(E) dated 21st January, 2009 and notification number S.O. 1390(E) dated 14.06.2011), to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 8, in column (4), relating to maximum cost to be allowed as deduction under section 35AC, for the letters, figures and words "Rs.12.85 crore" the letters, figures and words "Rs.18.95 crore" shall be substituted.

[No. 127/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3879(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 की अधिसूचना सं. का. आ. 862 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "डॉ. एम.एल. धवाले मेमोरियल ट्रस्ट, मार्फत डॉ. के.एम. धवाले, शेख सरिया बिल्डिंग, 40 पारेख स्ट्रीट, गिरगौम, मुंबई-400004" द्वारा "(क) 30 बिस्तरों वाले अस्पताल हेतु भवन का निर्माण, चिकित्सीय उपकरण, साज-सज्जा, रोगी वाहन तथा प्राथमिक खर्चे; (ख) वर्तमान अस्पताल का आधुनिकीकरण, चिकित्सा, उपकरण, साज-सज्जा, एंबुलेंस, प्राथमिक खर्चे; तथा (ग) चलता-फिरता (मोबाइल) स्वास्थ्य क्लीनिक चलाना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम" को निर्धारण वर्ष 1998-99 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 4 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 28 मार्च, 2001 की अधिसूचना सं. का.आ. 283 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2001-02 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 29 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं. का. आ. 1135 (अ) द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 16 जुलाई, 2007 की अधिसूचना सं. का. आ. 1158 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था तथा जिसे बाद में दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2382 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था; जिसे बाद में दिनांक 14.06.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 1387 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2382 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 36 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 306 लाख रूपये से बढ़ाकर 36 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 906 लाख रूपए कर दिया गया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के अठारह वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत में भी वृद्धि करने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—(क) “डॉ. एम.एल. धवाले मेमोरियल ट्रस्ट, मार्फत डॉ. के.एम. धवाले, शेख सरिया बिल्डिंग, 40 पारेख स्ट्रीट, गिरगौम, मुंबई-400004” द्वारा चलाई जा रही “(क) 30 बिस्तरों वाले अस्पताल हेतु भवन का निर्माण, चिकित्सीय उपकरण, साज-सज्जा, रोगी वाहन तथा प्राथमिक खर्चे; (ख) वर्तमान अस्पताल का आधुनिकीकरण, चिकित्सा, उपकरण, साज-सज्जा, एंबुलेंस, प्राथमिक खर्चे; तथा (ग) चलता-फिरता (मोबाइल) स्वास्थ्य क्लीनिक चलाना तथा सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता कार्यक्रम” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 व 2016 -17 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 12 दिसम्बर, 1997 की उक्त अधिसूचना सं. का. आ. 862 (अ) (दिनांक 3 अक्टूबर, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 2382 (अ) के साथ पठित) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामतः-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 2 के सामने सारणी में “36 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 906 लाख रूपए” संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “186 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 1600.63 लाख रूपए” संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 128/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3879(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O.862(E) dated the 12th December, 1997, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 4, “(a) Construction of building, medical equipments, furnishing, ambulance and preliminary expenses of 30 bed hospital; (b) Modernisation of existing hospital, medical, equipments, furnishing, ambulance, preliminary expenses; and (c) Undertaking mobile health clinics and community health workers’ programme” by Dr. M.L. Dhawale Memorial Trust, C/o Dr. K.M. Dhawale, Sekhsaria Building, 40 Parekh Street, Girgaum, Mumbai-400004, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-1999, which was extended further vide notification number S.O.283(E) dated the 28th March, 2001 for a period of three years beginning with assessment year 2001-2002, which was extended further vide notification number S.O.1135(E) dated the 29th September, 2003 for a period of three years beginning with assessment year 2004-2005, which was extended further vide notification number S.O.1158(E) dated the 16th July, 2007 for a period of three years beginning with financial year 2006-2007 and which was extended further vide notification number S.O.2382(E) dated the 3rd October, 2008 for a period of three years beginning with financial year 2008-09; which was extended further vide notification number S.O.1387(E) dated 14.06.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas by notification number S.O.2382(E) dated the 3rd October, 2008 the estimated cost was enhanced from Rs.306 lakh including a corpus fund of Rs.36 lakh to Rs. 906 lakh including a corpus fund of Rs.36 lakh.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond eighteen years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years for a further period of three years and enhancement in the estimated cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),-

a) hereby notifies the scheme or project “(a) Construction of building, medical equipments, furnishing, ambulance and preliminary expenses of 30 bed hospital; (b) Modernisation of existing hospital, medical, equipments, furnishing, ambulance, preliminary expenses; and (c) Undertaking mobile health clinics and community health workers’ programme”, being carried out by Dr. M.L. Dhawale Memorial Trust, C/o Dr. K.M. Dhawale, Sekhsaria Building, 40 Parekh Street, Girgaum, Mumbai-400004, as an eligible project or scheme for a further period of three years commencing with financial year 2014-15 i.e., 2014-15, 2015-16 and 2016-17,

b) further amends the said notification number S.O.862(E) dated the 12th December, 1997 (read with notification number S.O.2382(E) dated the 3rd October, 2008), to the following effect, namely :-

In the said notification, in the Table against serial number 2, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.906 lakh, including a corpus fund of Rs.36 lakh”, the letters, figures and words “Rs.1600.63 lakh including a corpus fund of Rs. 186 lakh” shall be substituted.

[No. 128 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3880(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 17 जून, 2008 की अधिसूचना सं. का. आ. 1462 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, 159, सी.एस.टी रोड, कालीना, सांताक्रूज (पूर्व) मुंबई 400098” द्वारा “एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम” संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2008-09 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 1 पर अधिसूचित किया था, जिसे बाद में दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2408 (अ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 को समाप्त होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया था।

और जबकि दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2408 (अ) द्वारा अनुमानित लागत को 14.35 करोड़ रु. से बढ़ाकर 24.09 करोड़ रु. कर दिया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 6 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने

आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने और परियोजना लागत में भी वृद्धि करने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—

(क) “ल्यूपिन ह्यूमन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन, 159, सी.एस.टी रोड, कालीना, सांताक्रूज (पूर्व) मुंबई 400098” द्वारा चलाई जा रही “एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम” की परियोजना अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2014-15 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2014-15, 2015-16 व 2016 -17 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में एतद्वारा अधिसूचित करती है।

(ख) दिनांक 17 जून, 2008 की उक्त अधिसूचना सं. का.आ. 1462 (अ) (दिनांक 18.10.2011 की अधिसूचना सं. का. आ. 2408 (अ.) के साथ पठित) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामतः—

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 1 के सामने सारणी में “24.09 करोड़ रूपए” संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “34.09 करोड़ रूपए” संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 129/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3880(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 1462(E) dated 17th June, 2008, issued under clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 1, “Integrated Rural Development Programme” by Lupin Human Welfare & Research Foundation, 159, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2008-09; which was extended further vide notification number S.O. 2408(E) dated 18.10.2011 for a period of three years ending with financial year 2013-14.

And whereas vide notification number S.O. 2408(E) dated 18.10.2011, the estimated cost was enhanced from Rs. 14.35 crore to Rs.24.09 crore;

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond six years;

And, whereas, the National Committee for the Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for extending the said project or scheme for a further period of three years and also enhancement in the estimated cost;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), -

a) hereby notifies the scheme or project “Integrated Rural Development Programme”, which is being carried out by Lupin Human Welfare & Research Foundation, 159, C.S.T. Road, Kalina, Santacruz (East), Mumbai 400 098, as an eligible project or scheme for a further period of three financial years commencing with the financial year 2014-15 i.e. 2014-15, 2015-16 and 2016-17,

b) further amends the said notification number S.O.1462(E) dated the 17th June, 2008 (read with notification number S.O. 2408(E) dated 18.10.2011), to the following effect, namely:-

In the said notification, in the Table against serial number 1, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section of 35AC of Income Tax Act, 1961 for the letters, figures and word “Rs. 24.09 crore” the letters, figures and word “Rs. 34.09 crore” shall be substituted.

[No. 129 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3881(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (i) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23.12.2010 की अधिसूचना सं. का. आ. 3021 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने “श्री बालाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, गुरुवार पेठ, अम्बाजोगई, जिला बीट, महाराष्ट्र-431517” द्वारा “शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र” की परियोजना को वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 153.84 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 288.30 लाख रूपए की एक अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 11 पर अधिसूचित किया था।

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्णित करने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए —(क) “श्री बालाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, गुरुवार पेठ, अम्बाजोगई, जिला बीट, महाराष्ट्र-431517” द्वारा चलाई जा रही “शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए पुनर्वास केन्द्र” की परियोजना अथवा स्कीम को 153.84 लाख रूपए की कॉर्पस निधि सहित 288.30 लाख रूपए की अनुमोदित लागत में कोई परिवर्तन किये बिना वित्तीय वर्ष 2013-14 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2013-14, 2014-15 व 2015 -16 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. 130/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3881(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. No. 3021 (E) dated 23.12.2010, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 11, “Rehabilitation Centre for Physically and mentally challenged children” by “Shri Balaji Shikshan Prasarak Mandal, Guruwar Peth, Ambajogai, District Beet, Maharashtra 431517”, at the estimated cost of Rs. 288.30 lakh including corpus fund of Rs.153.84 lakh, as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with financial year 2010-11.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - hereby notifies the scheme or project "Rehabilitation Centre for Physically and mentally challenged children", which is being carried out by "Shri Balaji Shikshan Prasarak Mandal, Guruwar Peth, Ambajogai, District Beed, Maharashtra 431517", without any change in the approved cost of Rs. 288.30 lakh including corpus fund of Rs.153.84 lakh, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14, i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16.

[No. 130 /2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3882(अ).—जबकि आयकर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (i) के अंतर्गत जारी की गयी भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 06.10.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2545 (अ) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने "यूनाइटेड एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट नं. 96, साथी मेल रोड कुरुंबापाल्यम, कोयम्बटूर-641107" द्वारा "बाल भवन और वृद्धाश्रम" संबंधी परियोजना को वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्ष की अवधि के लिए 8.65 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं. 5 पर अधिसूचित किया था;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के 3 वर्ष से अधिक चलने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम (5) के अंतर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को आगे तीन वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की सिफारिश की है;

और इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार एतद्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए —(क) "यूनाइटेड एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट नं0 96, साथी मेल रोड कुरुंबापाल्यम, कोयम्बटूर-641107" द्वारा चलाई जा रही "बाल भवन और वृद्धाश्रम" की परियोजना अथवा अथवा स्कीम को वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि अर्थात् 2012-13, 2013-14 व 2014-15 के लिए एक पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में इस निदेश के साथ अधिसूचित करती है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 पहले ही समाप्त हो गया है अतः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 क ग के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कोई प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

(ख) दिनांक 06.10.2009 की अधिसूचना सं. का. आ. 2545 (अ) को निम्न प्रकार से संशोधित करती है नामतः:-

उक्त अधिसूचना में धारा 35 क ग के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत की जाने वाली लागत की अधिकतम राशि से संबंधित कॉलम (4) में क्र. सं. 5 के सामने सारणी में “8.65 करोड़ रुपये” संबंधी अक्षरों, अंकों और शब्दों के स्थान पर “10.80 करोड़ रुपये” संबंधी अक्षरों, आंकड़ों और शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. 131/2013/फा.सं.वी-27015/3/2013-एसओ(एन.सी.)]

आर. सानेहवाल, निदेशक (राष्ट्रीय समिति)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2013

S.O. 3882(E).—Whereas by notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) number S.O. 2545 (E) dated 06.10.2009, issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had notified at serial number 5, “Children’s Home and Aged Home” by “The United Educational and Social Welfare Trust No. 96, Sathy Main road, Kurumbapalyam, Coimbatore-641107”, as an eligible project or scheme for a period of three years ending with financial year 2011-12.

And whereas the said project or scheme is likely to extend beyond three years;

And whereas the National Committee for Promotion of Social and Economic Welfare, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of three years;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), - (a) hereby notifies the scheme or project “Children’s Home and Aged Home”, which is being carried out by “The United Educational and Social Welfare Trust No. 96, Sathy Main road, Kurumbapalyam, Coimbatore-641107”, as an eligible project or scheme for a further period of three years beginning with financial years, 2013-14 i.e., 2013-14, 2014-15, and 2015-16 but with the direction that as the financial year 2012-13 had already lapsed, no certificate under section 35AC of the IT Act, 1961 would be issued for the financial year 2012-13.

(b) In the said notification, in the Table against serial number 5, in column (4), relating to maximum amount of cost to be allowed as deduction under section 35 AC, for the letters, figures and words “Rs.8.65 crore”, the letters, figures and words “Rs.10.80 crore” shall be substituted

[No.131/2013 / F.No.V.27015/3/2013-SO (NAT.COM)]

R. SANEHWAL, Director (National Committee)